



प्रत्यक्ष नवबिहार

रांची संस्करण

www.tezrafterlive.com
Email-navbiharjh@gmail.com

रांची • रविवार • 09.02.2025 • वर्ष : 15 • अंक : 198 • पृष्ठ : 12 • आमंत्रण मूल्य : 3 रुपये

रांची, पटना और दिल्ली से प्रकाशित

सभी जिलों में खुलेगी किसान पाठशाला : हेमन्त सोरेन

एक लाख से अधिक कुंओं का निर्माण भी होगा



प्रत्यक्ष नवबिहार संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि खेती-किसानी और कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। झारखंड जैसे राज्य के लिए एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण विषय है। झारखंड की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ये लोग खेती-बाड़ी के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की बढ़ती भूमिका है। राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापित हुए लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं। यह विश्वविद्यालय राज्य में किसानों के उत्थान के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संस्थान द्वारा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में काबिल बनाया जा रहा है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर कई छात्र-छात्राओं ने देश और दुनिया में आज किसानों को बेहतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट एवं रिसर्च के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। उक्त बातों मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची परिसर में आयोजित तीन दिवसीय एग्रीकल्चर किसान मेला-2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही।

कृषि कार्य की आधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि

झारखंड पठारी क्षेत्र में बसा हुआ राज्य है। जैसे तो प्रत्येक राज्य में खेती-बाड़ी के अलग-अलग पैमाने होते हैं, वहीं सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है तो कहीं व्यवस्थाओं के बल पर सिंचाई कार्य के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है। किसान वर्ग को अनन्तता कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को अपग्रेड करने की दिशा में कई गतिविधियां की जा रही हैं, किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए अभी और कार्य करने बाकी हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एवं राज्य सरकार एक बेहतर समन्वय बनाते हुए किसानों को बेहतर दिशा देने का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ-साथ कृषि-खेती कार्य को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ने की आवश्यकता है। कभी-कभी बदलते मौसम के कारण किसान वर्ग के लोग हतोत्साहित होते जाते हैं, तकनीक के माध्यम से ही उन्हें इन समस्याओं से बचाया जा सकता है।

पाइपलाइन के माध्यम से खेतों पर पहुंचाया जाएगा पानी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खेती-कृषि परिवार से ही आता हूँ। पहले हमारे गांव में गन्ने की खेती होती थी, हम लोगों ने खेतों में उगाए गए गन्ने से गुड़ बनते हुए देखा है, लेकिन

बनाई जाए।

सिंचाई कार्य के लिए कुंआ निर्माण योजना का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में कृषकों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी, समय पर किसानों के बीच बीज खाद का वितरण इन सभी चीजों पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों में किसान पाठशाला स्थापित की जाएगी, जहां किसान भाई बंधु खेती की आधुनिक तकनीक, पशुपालन, मछली पालन सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी एवं प्रशिक्षण लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि झारखंड के किसान वर्गों के लोगों को एक लाख से अधिक कुंआ निर्माण योजना का लाभ मिलेगा। नदी तालाब तथा कुंआ सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। बोरिंग कभी-कभी फेल भी हो जाता है, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा कुंआ निर्माण योजना लागू की जा रही है।

महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में महिलाओं को मुख्यमंत्री मंथ्यां सम्मान योजना के तहत ढाई हजार रुपए प्रतिमाह सहयोग राशि प्रदान कर रही है। यह राशि यहां की महिलाओं को आत्मनिर्भर बन रहा है। इस राशि के जरिए राज्य में महिला किसान दीर्घायु पशुधन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। किसान महिलाएं गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, शूकर पालन, फूल की खेती सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से आय का स्रोत ढूँढ सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला पेंसा राज्य है जो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहा है। राज्य सरकार की सोच है कि कैसे यहां के किसान खेती-कृषि के माध्यम से कृषक उद्यमों के तौर पर उभरे इस निमित्त योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

जिन्हें मलिक होने का घमंड था, उन्हें दिल्ली ने नकार दिया : पीएम मोदी दिल्लीवालों के दिल में खिला 'कमल' 27 साल बाद बनेगी भाजपा की सरकार



एजेंसी

नयी दिल्ली : दिल्ली की जनता ने लगभग 27 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक बार फिर सत्ता सौंपी है। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव की शनिवार को हुई मतगणना में भाजपा को 48 सीटें मिलती दिखायी दे रही हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने 22 सीटों पर बढ़त बनायी हुई है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आप-दा से मुक्त कराने का है। मोदी ने कहा कि मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा था और आप सबने हर परिवार में मेरा ये पत्र पहुंचाया था। मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए सिर झुकाकर नमन करता हूँ। मैं दिल्लीवासियों के आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी ने कहा कि दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया है। और मैं दिल्लीवासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करके 27 साल बाद अपना परचम लहराया है और पिछले तीन बार की आप सरकार को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। आप के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज समेत कई बड़े नेता अपना चुनाव हार गये। पार्टी के दिग्गज चेहरों में केवल मुख्यमंत्री आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान हुआ था।

केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई दिग्गजों को मिली हार



नयी दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 4,089 वोटों से मात दी है, जबकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे हैं। जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया को कांटे के मुकाबले में 675 वोटों से हार मिली है। भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाहा ने यहां जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के फरहाद सूरी तीसरे स्थान पर रहे। शकूर बस्ती विधानसभा सीट से 'आप' के सत्येंद्र जैन को 20,998 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें भाजपा के कारनेल सिंह ने हराया है, जिन्हें 56,869 वोट मिले हैं। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 3,188 से हार मिली है। भाजपा की शिखा ने उन्हें हराया है, जबकि कांग्रेस के गवित सिधवी तीसरे स्थान पर रहे हैं।

भाजपा ने शुरू से ही रूझानों में बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। श्री केजरीवाल को नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पराजित किया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट पर भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाहा से चुनाव हार गये। ग्रेटर कैलाश से सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को भी भाजपा प्रत्याशियों के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा। कालकाजी विधानसभा सीट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा प्रत्याशी रमेश विघुड़ी को हराकर जीती हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद भी रहे चुके हैं। उनके चाचा आजाद सिंह ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर के रूप में काम किया। प्रवेश वर्मा ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के टिकट पर मुंडका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सत्तारूढ़ आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का निर्णय मान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत विकास और सुशासन को जीत है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि दिल्ली में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। भारतीय राजनीति में एक नये प्रयोग के साथ साहिब सिंह वर्मा ने पराजित किया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट पर भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाहा से चुनाव हार गये। ग्रेटर कैलाश से सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को भी भाजपा प्रत्याशियों के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा। कालकाजी विधानसभा सीट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा प्रत्याशी रमेश विघुड़ी को हराकर जीती हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद भी रहे चुके हैं। उनके चाचा आजाद सिंह ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर के रूप में काम किया। प्रवेश वर्मा ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के टिकट पर मुंडका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सत्तारूढ़ आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का निर्णय मान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत विकास और सुशासन को जीत है। कांग्रेस की

एक नजर

बुदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक से टकराई बस, दो तीर्थ यात्रियों की मौत

हमीरपुर : हमीरपुर जिले के बुदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को तेज रफ्तार ट्रिस्ट बस खड़े ट्रक से टकराई गई। बस में सवार दो तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए। सभी तीर्थ यात्री प्रयागराज संगम में स्नान करने के बाद हिमाचल प्रदेश लौट रहे थे। हादसे की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए नजदीक के सरकारी अस्पताल भेजा गया। हालत नाजुक होने पर दो घायलों को मेडिकल कोलज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हिमाचल राज्य से तमाम तीर्थ यात्री बस में सवार होकर प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने गए थे। तीर्थयात्रियों से भरी बस आज हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र के चिल्ली ग्राम के निकट बुदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बस किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।

नया इनकम टैक्स बिल संसद में अगले हफ्ते पेश होने की उम्मीद : वित्त मंत्री



एजेंसी

नयी दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, जो जांच के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास जाएगा। आम आदमी के हाथ में अधिक पैसा छोड़ने और नियमों के सरलीकरण के लिए लाया जा रहे नए इनकम टैक्स बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई

कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। बजट के बाद की बैठक में रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संसद इसे पारित कर देगी, तब सरकार तय करेगी कि नया कानून कब लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इसे आने वाले हफ्ते में लोकसभा में पेश किया जाएगा।

प्रक्रिया यह है कि समिति अपनी सिफारिश देती है, वह वापस आती है और फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से निर्णय लेती है कि क्या ये संशोधन किए जाने हैं। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद ही यह फिर से संसद में जाता है। एक बार जब संसद पारित हो जाता है, तब वे निर्णय लेते हैं कि इसे कब लागू करना सबसे अच्छा रहेगा। कैबिनेट द्वारा नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दिए जाने से पहले इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा

था कि केन्द्रीय बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने के बाद कर आधार में कमी को देखते हुए, नया कानून संभवतः कसू दायरे को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू हुआ था। नया इनकम टैक्स बिल 21वीं सदी के मुताबिक होगा और मौजूदा कानून को रिप्लेस करेगा। सूत्रों की मानें तो नए इनकम टैक्स बिल में सरकार ने भाषा को सरल बनाने पर काम किया है। दरअसल अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक कोट में किसी चीज की व्याख्या अलग होती है, दूसरे में अलग। यानी यह कानून पूरी तरह से खिचड़ी की तरह बन गया है। इस बिल के सरलीकरण को ऐसे समझा जा सकता है कि पुराने आयकर कानून में लगभग 6 लाख के करीब शब्द हैं जो इस नए बिल में 3 लाख के करीब रह जाएंगे और यह करदाताओं को समझने के लिए भी आसान होगा।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महुआ की शराब पीने से सात की मौत, चार की हालत गंभीर

एजेंसी

बिलासपुर / रायपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी में महुआ की शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई। चार लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। इनका इलाज बिलासपुर सिमर में चल रहा है। मरने वालों में क्षेत्र के सरपंच का भाई भी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी। बताया गया है कि बुधवार को पहले एक की मौत हुई। फिर दो लोगों की जान गई। घरवालों ने बीमारी से मौत समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। शुक्रवार रात एक साथ चार लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया। लोगों में कानाफूसी शुरू हुई। तब सामने आया कि कई दिनों से महुआ की शराब लोग पी रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, मृतकों के नाम दल्लु पटेल, बलदेव पटेल, शत्रुघ्न देवांगन, कोमल देवांगन उर्फ नानु, कन्हैया पटेल, कोमल लहरे और



रामु सुनहले है। रामु सरपंच रामाधार का भाई है। प्रशासन ने अभी तक इस घटना पर अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर टीआई नवीन देवांगन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल मौजूद हैं।

शुक्रवार को जब एक साथ चार लोगों की मौत हुई। चार लोगों की मौत होने से गांव में सन्नाटा पसर गया। जिसके बाद लोगों ने दावा कि गया कि सभी मृतकों ने महुआ की शराब पी थी।

खुलेआम बिक रही शराब

स्थानीय लोगों को आरोप है कि पिछले 8-10 साल से गांव में महुआ शराब की बिक्री हो रही है। आबकारी और पुलिस की टीम आती है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जिस कारण से अवैध शराब बिक रही है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि मौत के लिये साय सरकार और भाजपा जिम्मेदार है।

3-4 दिनों से हो रही थी मौत

स्थानीय लोगों के मुताबिक, महुआ की शराब पीने के बाद लोग बीमार पड़ गए थे। पिछले तीन-चार दिन से लोग बीमार थे। जिस कारण लोगों की मौत हो रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि 8 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है।

एक नजर

दिल्ली में झूट के राज का हुआ अंत : मनीष जायसवाल

हजारीबाग : दिल्ली विधानसभा चुनाव- 2025 में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व और प्रचंड जीत पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दिल्ली में झूट के राज का अंत हुआ और विकास एवं सुशासन की शुरुआत अब होगी। दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सांसद मनीष जायसवाल ने दिल्ली की महान जनता, दिल्ली चुनाव में लगे भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नन्दा सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामना दिया। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रचंड जनतादेश के साथ 26 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार की वापसी करायी है इसके लिए दिल्ली की जनता और मतदाता विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसा कि भाजपा ने ऐलान किया था कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी तो विकास की गति बढ़ेगी अब दिल्ली में बदल इंजन की विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि सांसद मनीष जायसवाल को भाजपा सिर्फ नेतृत्व ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो विधानसभा क्षेत्र का दायित्व सौंपा था।

पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा तीन गिरफ्तार

चतरा : टंडवा के चर्चित विधुन साव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपसी रंजिश में की गई हत्या को उग्रवादी कांड का रूप दिया गया था। पुलिस ने मामले में टीपीसी के नक्सलियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था। विधुन साव ब्लाईंड मर्डर केस मामले में चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता है। एसपी विकास पांडे के नेतृत्व में गठित स्पेशल एसआईटी की टीम ने एक सप्ताह के भीतर मामले का उद्घेदन किया है। इस मामले में लेम्बुआ गांव निवासी रोहित साव ही मास्टरमाइंड निकला। आपसी रंजिश में रोहित ने ही समाजसेवी बिशुन साव के हत्या की साजिश रची थी। लेंबुआ निवासी विधुन साव को नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने अगवा कर जंगल ले जाकर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। अपराधी उसकी मां को एक पैड़ में बांध दिया था। पूरे घटनाक्रम को नक्सली गतिविधियों का रूप दिया गया था। इसी मामले में एसपी ने स्पेशल एसआईटी टीम का गठन किया था। एसपी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में रोहित साव के अलावे चतरा के बंधार निवासी राजू और दीपक को भी गिरफ्तार किया गया है।

श्री श्याम बाबा का दर्शन करने पहुंचे सांसद

रामगढ़ : रामगढ़ शहर के नेहरू रोड में श्री श्याम बाबा की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हुई। बाबा का दर्शन करने के लिए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। यहां उन्होंने अग्नि कुंड में आहुति दी और श्री खाटू श्याम बाबा का दर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्याम भक्तों का हजूम यह बता रहा है कि पांच दिनों तक लोगों ने आस्था में डुबकी लगाई है। यहां बाबा की प्रतिमा स्थापित कर लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया गया है। इस मौके पर पूजा कमेटी के लोगों ने सांसद का अभिनंदन किया।

दिल्ली की जनता ने झूट और भ्रष्टाचार को नकार कर विकास और सुशासन को चुना : प्रदीप प्रसाद

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

हजारीबाग : दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक एवं प्रचंड जीत के अवसर पर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने विधायक सेवा कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ मिलकर भव्य जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी की गई, ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई गई एवं कार्यकर्ताओं व आमजन को मिठाइयां बांटी गईं। इस अवसर पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत यह दर्शाती है कि जनता झूठे वादों और भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊब चुकी है और उसने विकास एवं सुशासन के मार्ग को



चुना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दिल्ली की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया है और यह जीत देश में भाजपा की मजबूत पकड़ एवं जनता के अटूट विश्वास को प्रमाणित करती है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि

दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार और अन्वयस्था को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के विकास, जनता की सेवा और पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली की जनता ने इस संकल्प पर अपनी

मुहर लगा दी है। इस विजय उत्सव में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक उपस्थित रहे। सभी ने दिल्ली में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर जोश और उत्साह के साथ ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाच-गाकर और

मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस अवसर पर दिल्ली की जनता को भाजपा पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह जीत देश में विकास की राजनीति की जीत है।

दिल्ली विस चुनाव में भाजपा की जीत पर आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने बाटी मिठाई

बड़कागांव : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपाइयों ने खूब आतिशबाजी कर लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपाइयों ने बड़कागांव पूर्वी उरीमारी, बड़कागांव पश्चिम मंडल में जमकर खुशी मनाई गई। बड़का गांव पश्चिम मंडल मुख्य चौक पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश मिश्रा की अगुवाई में भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर एवं मिठाई बांटकर खुशी जाहिर किया। खुशी जाहिर करने वालों में मुख्य रूप से विधायक रोशन लाल चौधरी, पूर्व विधायक लोकनाथ अशोक पूर्व प्रमुख टुंकेश्वर प्रसाद शिबू कुमार मेहता उर्फ शिव शंकर, अशोक साहू, महेंद्र महतो, अशोक महतो, केदार महतो आदि कई लोगों ने खुशी जाहिर की।

मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर शिक्षकों की हुई बैठक



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

बड़कागांव : मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर पीएम श्री मध्य विद्यालय में शिक्षकों एवं केंद्र अधीक्षक के साथ बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से निर्णय लिया गया कि 11 फरवरी से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए परीक्षा ड्यूटी में लगाए जाने वाले शिक्षक विश्वक के रूप में काम करेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा पर जोर दिया गया। केंद्र अधीक्षक कौलेश्वर महतो ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान

शिक्षकों को मोबाइल नहीं रखना है। परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहेगा। परीक्षा केंद्र में पुलिस भी तैनात रहेगी। मौके पर शिक्षक चेतलाल राम, विनोद रजक, हेमेंद्र कुमार, शिक्षिका नीलू कुमारी, निगार सुलताना, निधि कुमारी, मुनेश कुमार राम, रामवृष राम, कमलेश श्रीवास्तव, तुलसी कुमार, देवेन्द्र कुमार, संजय सागर, रवि कुमार रवि, कार्तिक सोनी, जमशेद अंसारी, कैसर अंजुम, नकुल महतो, संतोषी कुमारी, पुष्पा कुमारी, रजनी कुमारी मौजूद थे।

दिल्ली विस चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी जी के नेतृत्व की जीत : विधायक

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

बरही : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर बरही विधायक मनोज यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस जीत को भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व का परिणाम बताया। विधायक मनोज यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर यह साबित कर दिया है कि देश विकास की राजनीति को ही स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि इस जीत में भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, समर्पण और निष्ठा का अहम योगदान रहा है, जिन्होंने घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जनता तक पहुंचाया।



उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि झूठे वादों और खोखले दावों की राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता अब विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की राजनीति को ही प्राथमिकता दे रही है। भाजपा की यह जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर पूरा भरोसा है और वह उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा देखना चाहती है। विधायक मनोज यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत

की सराहना की और कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और समर्थन की भी जीत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन पार्टियों को नकार दिया, जो सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करती हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करतीं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की सरकार दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में राजधानी में विकास की नई योजनाएं लागू की जाएंगी। बरही विधायक मनोज यादव ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली के भाजपा नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि यह जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूर्य मंदिर के साप्ताहिक बैठक में पहुंचे विधायक निर्मल महतो

बिष्णुगढ़ : हजारीबाग जिले के बिष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत चेडरा अवस्थित उत्तर वाहिनी जमुनिया नदी समीप नवनिर्मित सूर्य मंदिर की साप्ताहिक बैठक की गई। जिसमें यज्ञ की तिथि को ध्यान में रखते हुए यज्ञ को सफल बनाने हेतु कोष संग्रहण पर बल दिया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हुए विधायक निर्मल महतो के समक्ष यज्ञ की व्यवस्था पर चर्चा की गई। जिस पर विधायक महतो ने यथा संभव मदद का भरोसा सूर्य मंदिर के सदस्यों एवं ग्रामीणों को यज्ञ को सफल बनाने के लिए दिया। मौके पर सूर्य मंदिर समिति के सदस्य सह अध्यक्ष रामेश्वर सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत चेडरा निर्मल कुमार, उपाध्यक्ष आनंद राम, सचिव नवल किशोर वर्मा, उपाध्यक्ष शंकर गोस्वामी, कोषाध्यक्ष प्रयाग प्रसाद सोनी, इत्यादि गण मान्य एवं समीप उपस्थित थे।

हजारीबाग में कैनरी बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

हजारीबाग : हजारीबाग में पहली बार कैनरी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जिसका उद्देश्य आम जनता को प्रकृति के साथ जोड़ना है। हजारीबाग और इसके आसपास के इलाकों में कौन से पंखी पाए जाते हैं इसकी बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में वन विभाग के पदाधिकारी के साथ-साथ समाज के कई लोग, पर्यावरण प्रेमी और बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे शामिल हुए। हजारीबाग अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता होने के कारण यहां कई ऐसे पंखी देखने को मिलते हैं जो शायद ही दूसरे जगह देखने को मिले। पर्यावरण विविधता का यह एक बेजोड़ उदाहरण भी है। खासकर के हजारीबाग का कैनरी पहाड़ जिसे कैनेडी हॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहां के सुंदर वादियों में सुंदर पंखी देखने को मिलते हैं। सुबह और शाम पंखियों की आवाज



से यह पूरा क्षेत्र गुंजते रहता है। इसे देखते हुए हजारीबाग में पहली बार कैनरी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पर्यावरण विद् का जमावड़ा लगा। जहां लोगों ने कैसे क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, किस तरह से पंखियों को सुरक्षा दिया जाए, पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य विषयों पर चर्चा किया। कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी भी लगाया गया। हजारीबाग के बहुत चर्चित युवा अमित जैन जो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने फोटो गैलरी भी लगाया। 70 से अधिक

तरह के पंखियों की तस्वीरें लगाई गईं। ये वो पंखी है जो हजारीबाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह आकर्षण का केंद्र बिंदु भी रहा। कार्यक्रम के दौरान नाट्य संगीत के जरिए भी लोगों को जागरूक किया गया। पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल जो कार्यक्रम के संयोजक भी हैं उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जाए। स्थानीय लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया जाए। साथ ही वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफी के लिए लोगों को जानकारी दिया जा सके।

उनका कहना है कि इस तरह का आयोजन छोटे शहरों में बेहद कम होता है। बच्चों में बर्ड वाचिंग में उत्सुकता है, तो उन्हें वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफी के जरिए करियर के बारे में भी जानकारी दी जा सके। प्रसिद्ध पर्यावरण विद् मुरारी सिंह ने बताया कि जहां कार्यक्रम स्थल है उसका नाम भी कैनरी पंखी के नाम पर किया गया है। ऐसे में इसके महत्व को समझा जा सकता है। उनका कहना है कि ऐसे स्थल पर कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि लोगों को जोड़ा जा सके। जब लोग किसी से जुड़ते हैं तभी उनका संरक्षण भी होता है। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजारीबाग के जाने-माने वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अमित जैन का कहना है कि इस तरह का आयोजन से बल मिलता है। लोगों को नजदीक से पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। पहली बार हजारीबाग में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है।

कीट विश्वविद्यालय भुवनेश्वर बना पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला खो-खो प्रतियोगिता का चैंपियन

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

हजारीबाग : विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की मेजबानी में आयोजित तीन दिवसीय पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला खो-खो प्रतियोगिता का खिताब कीट विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ने जीत लिया। उपविजेता का खिताब यूनिवर्सिटी आफ बर्दवान, पश्चिम बंगाल ने जीता। तीसरे और चौथे स्थान क्रमशः उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर और हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग प्रवेश प्राप्त किया। शनिवार 8 फरवरी को प्रतियोगिता के अंतिम दिन इन चारों विश्वविद्यालयों का एक दूसरे के साथ कुल 6 मैच आयोजित हुए। सभी को तीन मैच



नाॅकआउट पद्धति से और बाद में लीग पद्धति से किया जाता है। इसी के तहत उपरोक्त चारों विश्वविद्यालय दल अपने-अपने पुल में विजेता होकर लीग में प्रवेश प्राप्त किया। शनिवार 8 फरवरी को प्रतियोगिता के अंतिम दिन इन चारों विश्वविद्यालयों का एक दूसरे के साथ कुल 6 मैच आयोजित हुए। सभी को तीन मैच

खेलने पड़े। कीट विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ने अपने तीनों मैच जीतकर प्रतियोगिता को जीत लिया। वहीं यूनिवर्सिटी आफ बर्दवान, पश्चिम बंगाल ने दो मैच जीत कर प्रतियोगिता का उपविजेता बना। उत्कल विश्वविद्यालय ने एक मैच जीत कर तीसरा स्थान प्राप्त किया और लीग के तीनों मैच में पराजित होने

के कारण हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को चौथा स्थान से संतोष करना पड़ा। मुख्य अतिथि सह आईजी पंकज कंबोज, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार एवं विशिष्ट अतिथि एनटीपीसी पंखरी बरवाडीह के महाप्रबंधक फैज तैयब ने सभी विजेता दलों को ट्रॉफी और सभी दल के खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार कीट विश्वविद्यालय को पूजा अर्चना माझी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ, आक्रांता, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान की सुष्मिता दास को तथा सर्वश्रेष्ठ, रक्षक, कीट

विश्वविद्यालय के कलान मगई माझी को प्राप्त हुआ। सम्मान समारोह में सर्वप्रथम आयोजन सचिव सह विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉ रघु हरि ने पूरे प्रतियोगिता का प्रतिवेदन पाठ किया। डॉ सुबोध कुमार सिंह, डॉ नीरज डांग, डॉ जॉनी रुफिना तिकी, डॉ मृत्युंजय प्रसाद एवं शोधाधी पुष्कर ने बड़ी ही रोचक अंदाज में कार्यक्रम का संचालन किया। छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉ विकास कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय तिरंगा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का ध्वज तथा विश्वविद्यालय ध्वज का अवरोहण किया गया।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली विस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई ऐतिहासिक विजय : शेफाली गुप्ता

हजारीबाग : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक एवं प्रचंड जीत पर भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने प्रसन्नता से प्रफुल्लित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत एवं जनता का अटूट विश्वास को काफ़ी सराहा। ऐतिहासिक एवं प्रचंड जीत की भाजपा कार्यकर्ताओं एवं दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत की सराहना की। इस दौरान प्रसन्नता के साथ भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय है। दिल्ली की जनता ने विकास और सुशासन को चुना है। यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प की जीत है। उन्होंने ने कहा कि यह सफलता दिल्ली भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के अपार समर्थन का परिणाम है। अब समय है, दिल्ली को सशक्त और समृद्ध राजधानी बनाने का है। आइए, हम सब मिलकर विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें।

मुखिया पार्वती देवी को अच्छा कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित



केरेंडारी : केरेंडारी प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार के आदेशानुसार प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सुमन कुमार के अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय सभागार में विशेष मनरेगा दिवस एवं बिरसा हरित ग्राम योजना वर्ष 2025-26 हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, बीएफपी सीएफपी, बागवानी सखी, पंचय महिला मेट के सदस्यों को बिरसा हरित ग्राम योजना के चयन एवं क्रियान्वयन पर विस्तृत जानकारी देते हुए ससमय कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही विशेष मनरेगा दिवस के उपलक्ष्य पर वर्ष 2023-24 में मनरेगा में बेहतर कार्य करने वाले मुखिया पार्वती देवी सलगा, पंचायत सचिव तलेश्वर गोप सलगा, ग्रामोरोसे0 नन्द किशोर राम सलगा, विनोद तिकी गरिकला, रविंद्र कुमार हेवई, उदेश्वर सिंह बुंदू, बलिनद्र रविदास पाताल, जुगेश्वर प्रसाद मनात एवं बीएफटी अर्जुन महतो, राजीव कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजाजीत कुमार सीएफपी के द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम अर्थात् अपूर्ति पदाधिकारी रवि राजा, बिपिन कुमार बीपीएम जेएसएलपीएस, सहायक अभियंता विशाल कुमार, कनीय अभियंता राहुल रजवार, अंकित कुमार पाण्डे सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, बीएफटी, महिला समूह की सदस्या, महिला मेट आदि उपस्थित रहे।

परेवातरी एवं कुम्हरडीहा से दर्जनों श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए रवाना



बड़कागांव : बड़कागांव प्रखंड के परेवातरी एवं कुम्हरडीहा से दर्जनों लोगों की जत्था शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ स्नान के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, चित्रकूट, मेहरा, विद्याचल आदि धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर पूजा अर्चना करेंगे। श्रद्धालुओं का जत्था में मुख्य रूप से भवानी कुमार, ज्ञानचंद्र कुमार उर्फ ज्ञानी, पारसनाथ प्रजापति, सचिन प्रजापति, प्रभु सिंह, इमन महतो, संतोष कुमार, राजू कुमार, भवन ठाकुर, कृष्णा महतो, कृष्णा ठाकुर, कृष्णा कुमार, सोरभ महतो शामिल हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, बरही चौक पर जश्न का माहौल



बरही : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। झारखंड के बरही चौक पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार तरीके से विजय उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व की नीतियों की जीत बताया। स्थानीय नेताओं का कहना है कि जनता ने भाजपा की विकास योजनाओं और सुशासन पर भरोसा जताया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए जीत की खुशी मनाई। बरही चौक ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड और देशभर में भाजपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत भाजपा की नीतियों और जनता के विश्वास का प्रमाण है। भाजपा नेताओं ने जनता का आभार जताया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, जिप प्रतिनिधि सह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गणेश यादव, मंडल अध्यक्ष सह मुखिया संघ अध्यक्ष विजय यादव, मुखिया शमशेर आलम, मंडल अध्यक्ष भगवान केशरी, मुखिया प्रतिनिधि विशेषवर यादव, मुखिया प्रतिनिधि हरेन्द्र गोप, विशेषवर यादव, पिंटू ठाकुर, ज्योतिष यादव सहित दर्जनों भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उत्कमित प्राथमिक विद्यालय कजरा में मुखिया प्रतिनिधि ने किया पोशाक वितरण

बरही : बरही प्रखंड अंतर्गत केदारुत पंचायत के ग्राम कजरा के उत्कमित प्राथमिक विद्यालय में मुखिया प्रतिनिधि विशेषवर यादव ने वर्ग पहला और दूसरा के 17 बच्चों के बीच ड्रेस, जूते मोजे और स्वेटर का वितरण किया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विशेषवर यादव ने कहा कि यह झारखंड सरकार का सराहनीय प्रयास है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को इससे काफ़ी फायदा होगा। सभी बच्चे एक ड्रेस में आने से उनमें समानता का बोध होगा। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने-अपने बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन भेजने का अपील किया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विशेषवर यादव, अनिल राम, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंद्र भुईयां, प्रधानाध्यापक निर्मल रविदास, चंचला देवी, पूनम देवी, चांदनी देवी, अनीता देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

एक नजर

पोस्टल-आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

रांची : पोस्टल- आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक शनिवार को त्रिवेणी ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पोस्टमैन का जनवरी 1996 से बढ़े हुए वेतन पर पेंशन का पुनर्निर्धारण नहीं होने पर चिंता व्यक्त किया गया। इस मांग पर आम सहमति बनी कि यदि दो माह के अंदर पोस्टमैन के बकाया का भुगतान डाक प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है तो एसोसिएशन भूख हड़ताल को बाध्य होगा। बैठक में इंडव्शन ट्रेनिंग पर भी 2016 से कोई कार्यवाही नहीं होने पर चिंता जताई गई। राज्य सचिव एमजेड खान ने कहा कि मई में जमशेदपुर में राज्य सम्मेलन होगा। बैठक में एमजेड खान, जयनारायण प्रसाद, रंगनाथ पांडेय, रमेश सिंह, आर बी बैठा, राम बलि पंडित, अमिता तिकी, पास्कल बोदरा, कमल किशोर, राजेंद्र महतो, धनेश्वर गोस्वामी सहित अन्य मौजूद थे।

झारखंड में उद्योग की अपार संभावनाएं : संजय

रांची : मोरहाबादी में शनिवार को मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उद्योग एवं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। यादव ने कहा कि झारखंड में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। राज्य हित के साथ-साथ उद्योग को बढ़ावा देने और मजदूर बनाने पर मंत्री की नजर है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग जरूरी है। इससे राज्य के पलायन को रोका जा सकता है। दूसरे राज्य में जाने वाले मजदूर और किसानों को रोका जा सकता है। इसके लिए राज्य में उद्योग नीति बनाई जा रही है। राज्य सरकार राज्यहित में काम कर रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि यहां देश-विदेश से मेला में शामिल होने उद्योगी आ रहे हैं। वे अपने उत्पाद और हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मेला व्यवसायिक के क्षेत्र में रांची वासियों का मार्गदर्शन करता आ रहा है। बता दें कि इस दिवसीय मेगा ट्रेड फेयर में आठ देश और 15 राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें 35 हजार प्रोडक्ट्स 350 स्टॉल में लगाए गए हैं। 7 से 17 फरवरी तक मोरहाबादी मैदान में चलनेवाले ट्रेड फेयर में 8 अंतर्राष्ट्रीय देश और झारखंड समेत 15 राज्य शामिल हो रहे हैं।

झारखंड प्रदेश में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में भाजपा

रांची : झारखंड प्रदेश भाजपा में सांगठनिक चुनाव के जरिए पार्टी में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा ने फरवरी माह में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इधर दिल्ली में मिली जीत से प्रदेश भाजपा को भी बूटअप मिला है। जल्द होगी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पार्टी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। शुरुआती चरण में बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। आम सहमति के आधार पर चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतदान के जरिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नए प्रदेश अध्यक्ष की टोड़ में कई नाम भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी के कई बड़े चेहरों के नामों की चर्चा तेजी से चल रही है। इनमें रघुवर दास, रवींद्र राय, अनंत ओझा, सुनील सिंह, समीर उरांव जैसे नाम सबसे आगे हैं। जल्द पूरी की जाएगी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संगठनात्मक चुनाव के जरिए भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव मार्च के पहले सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाएगा, हालांकि परंपरा के मुताबिक, इस पर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व से लगती है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा : सेट

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन एकात्मता यात्रा 2025 के तृतीय दिवस शनिवार को कार्यक्रम केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के साथ संवाद का रहा संवाद के सिलसिले में सील प्रतिनिधियों ने अपने इस यात्रा का अनुभव साझा किया एवं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गुवाहाटी से रांची तक अनपत्न का भाव अपना परिवार सी वात्सल्य हमें महसूस हो रही है। संजय सेठ जी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ही एकमात्र छात्र संगठन है जो एकात्मक का भाव भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर जागृत कर सकती है राष्ट्र प्रथम भाव के साथ काम करने के लिए हम सभी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का सानिध्य हम सबको जीवन में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में संगठन की भूमिका होगी हजारों किलोमीटर दूर से विद्यार्थियों हजारों किलोमीटर दूर



पूर्वोत्तर से चलकर है विद्यार्थियों को यदि किसी अन्य राज्य में भी परिवार की कमी महसूस नहीं हो रही है माता-पिता जैसा प्रेम करने वाले लोग मिल रहे हैं तो यह कार्य केवल और केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन ही कर सकता है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि पूर्वोत्तर की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली संस्कृति है हम सभी कई वर्षों तक खुद को पूर्वोत्तर से दूर रख रहे थे इसलिए वहां की सूर्यता वहां के संस्कृति से अनजान थे लेकिन सेल जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सन 1966 से ही पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत के साथ जोड़ने का और राष्ट्रीय एकात्मता का पुनीत कार्य का या अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बिरला प्रौद्योगिकी



संस्थान में भ्रमण के क्रम में आज कई प्रकार के लैब एवं विज्ञान से जुड़ी रासायनिक प्रक्रियाएं, रॉकेट्री साइंस एवं कई अन्य प्रकार के जानकारीयों भी उपलब्ध कराई गईं। मनीष सर ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियां बताते हुए कि बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपनी कई एक एल्यूमिनी इस विश्वविद्यालय ने पूरे भारत को दिया है आज इस संस्थान से विद्यार्थी उठ करके भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसी क्रम में सरला बिरला विश्वविद्यालय का भ्रमण हुआ जो आज झारखंड का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जहां शिक्षा के विविधता को महत्व देते हुए सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भाजपा दिल्ली के लोगों को दिलाए प्रदूषण से मुक्ति : झामुमो



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दिल्ली में भाजपा को जीत मिली है तो पार्टी दिल्लीवासियों को यमुना नदी के आसपास के इलाके में फैले प्रदूषण से मुक्ति दिलाए। उन्होंने कहा कि 1998 में जब दिल्ली में पहली बार भाजपा सत्ता में आई थी तो इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं कर सकी। सुप्रियो शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव के नतीजे उस समय ही साफ हो गए थे जब भाजपा ने वहां की चुनी हुई सरकार के सभी अधिकार लेकर एलजी को दे दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत, निर्वाचन आयोग, ईडी और सीबीआई के गठबंधन को जीत है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को बनाने में केंद्र सरकार का योगदान है। उन्होंने कहा कि झारखंड के चुनाव नतीजों से भाजपा ने सीख ली है। राज्य की मंईया योजना की तर्ज पर भाजपा दिल्ली में भी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देगी। सुप्रियो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह महत्वपूर्ण योजना की बानगी आनेवाले दिनों में कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी दिखेगी।

कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव के नतीजे उस समय ही साफ हो गए थे जब भाजपा ने वहां की चुनी हुई सरकार के सभी अधिकार लेकर एलजी को दे दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत, निर्वाचन आयोग, ईडी और सीबीआई के गठबंधन को जीत है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को बनाने में केंद्र सरकार का योगदान है। उन्होंने कहा कि झारखंड के चुनाव नतीजों से भाजपा ने सीख ली है। राज्य की मंईया योजना की तर्ज पर भाजपा दिल्ली में भी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देगी। सुप्रियो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह महत्वपूर्ण योजना की बानगी आनेवाले दिनों में कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी दिखेगी।

मुख्यमंत्री से जैक अध्यक्ष और सीसीएल अध्यक्ष ने की मुलाकात



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को किके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सेंट्रल कोल फोल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध डॉ० नटवा हांसदा ने मुलाकात की।



मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री से किके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सेंट्रल कोल फोल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक निलेंद्र कुमार सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने 09 फरवरी 2025 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित कोल इंडिया मैराथन के तृतीय संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया।

तसर रेशम उत्पादन 800 मेट्रिक टन करने का लक्ष्य : मंत्री संजय



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में शनिवार को उद्योग विभाग की ओर से आयोजित हस्तकला, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय रेशम कृषकों का क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 2023-

24 में 1000 मेट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 1121.77 मेट्रिक टन कच्चा तसर का उत्पादन किया गया। वहीं आगामी वित्त वर्ष 25 -26 में रेशम पर क्षेत्र में 1800 मेट्रिक टन तसर रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए तसर किट पालक कृषकों को किट पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के गरीब

नागरिकों के स्वरोजगार के प्रति सरकार संकल्पित है। फसल उत्पादन हस्तशिल्पो विकास एवं बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत बुनकरों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को सुदृढ़ करने के लिए समितियां समूह को लूम एवं सहायक साज सज-जा वर्कशॉप कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। रेशम उत्पादन से जुड़े ग्रामीण विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान का लाभ हो इसे लेकर निदेशालय एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे विभाग की बैठक करेंगे जिसमें जो भी कर्मियां होंगी उसे दूर करेंगे।

राजभवन में गुलाबों की खूबसूरती देखने के लिए लग रही है लंबी लाइन



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : शहर के बीच में स्थित राजभवन इन दिनों गुलजार हो रहा है, क्योंकि यहां पर कई रंगों के गुलाब फूलों के साथ-साथ अन्य फूलों की भी विविधता बगीचों में लगाई गई है। इन सभी फूलों को देखकर लोगों का मन और दिल उत्साह से भर जा रहा है। सफेद, लाल, पीला, पंक समेत देश-विदेश के फूल भी बगीचों में खिलते हुए नजर आ रहे हैं। इन फूलों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक वार्डिका के सामने दो से चार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि खिले हुए फूलों को कोई हाथ न लगाए। राजभवन में

प्रवेश के लिए आठ स्टॉल और आठ रजिस्टर रखे गए हैं। मुख्य गेट के समीप लोगों के बैग चेक किए जा रहे हैं और उनका नाम और गांव दर्ज किया जा रहा है। राजभवन के गेट तक लग रही है लंबी लाइन बाहर से बड़ा गेट और सफेद रंग की इमारत दिखती है। लोग जब राजभवन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें यहां के भव्य माहौल का एहसास होता है। यहां पर सैकड़ों एकड़ में फैला भवन, फूलों का बगीचा, पानी के फुहारे, लकड़ी से बने जलचर और झारखंड के क्रांतिकारी शहीदों के नाम पर बनाए गए बगीचे सभी को आकर्षित कर रहे हैं।

आप'दा के खिलाफ दिल्ली की जनता का जबर्दस्त जनादेश, मोदी की गारंटी पर जताया भरोसा : बाबूलाल

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जबरदस्त जीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के दुष्प्रचार को सिर से खारिज कर भाजपा को अपना समर्थन दिया, इसके लिए मैं जनता जनार्दन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आपदा के खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया है। जनता ने मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास जताया है।



मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह एवं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित सभी सम्पर्कित कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक विजय पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मोदी के गारंटी की जीत डॉ रविंद्र कुमार राय भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय ने दिल्ली की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ और फरेब को बेनकाब कर दिया

है। विकास विरोधी और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतियों को इस जीत से सबक लेनी चाहिए। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी फरेबी पार्टी आपदा पार्टी को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है। दिल्ली की जनता ने आप पार्टी को केवल चुनाव नहीं हराया बल्कि अरविंद केजरीवाल को चित से उतार दिया है। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर और पटाखे छोड़कर कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह जीत असत्य पर सत्य की जीत है। झूठे

वादों और झूठी राजनीति से जनता को बहुत दिनों तक नहीं बरगलाया जा सकता। प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने कहा कि दिल्ली के जनादेश ने राष्ट्रवाद और तीव्र विकास की राजनीति को मजबूती प्रदान की है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार अब जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। मोदी की गारंटी अब जमीन पर साकार होगी। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि पिछले एक दशक से दिल्ली की जनता को केवल मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए। आज जनता झूठे और भ्रष्टाचारी लोगों को सबक सिखाई है।


संक्षिप्त खबरें

श्री श्याम मंदिर में मनाया गया जया एकादशी उत्सव



रांची : हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में आज जया एकादशी का भव्य रूप से आयोजन किया गया। सुबह 5:00 बजे मंदिर के पट खुलते ही भक्तों का ताता लगा रहा। सुबह के 5:30 बजे की मंगला आरती में भक्तों ने बाबा के समक्ष अपने लिए मंगल कामना की अरदास लगाई। इसके बाद बाबा का पर्दा लगाकर प्रातः कालीन श्रृंगार किया गया। श्रृंगार आरती में बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। सभी ने श्रृंगार आरती में हाजिरी लगाकर जय जय खाटू के वासी जय जय बाबा श्याम का गायन किया। 12:15 बजे की विश्राम आरती के बाद 12:30 बजे मंदिर के पट लगा दिए गए। दोपहर के बाद बाबा श्याम का एवं सभी देवी देवताओं सहित तैल चित्रों एवं गुरु जनों का संध्याकालीन द्वितीय श्रृंगार किया गया। कोलकाता से मंगए गए लाल गुलाब पीला गुलाब रानी स्टार पीला स्टार सफेद स्टार लाल गेंडा तुलसीदल की मोटी मोटी फूल मालाओं से खाटूनरेश का दिव्य अनुपम श्रृंगार किया गया। संध्या 4:30 बजे पट खुलते ही बाबा के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। ज्ञातव्य है कि बाबा श्याम का विशेष दिन एकादशी होने के कारण आज हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में बड़े पैमाने में भक्त अपने अर्जों लेकर आते हैं। भक्तों में यह मानना है की ग्यारस में सच्चे दिल से लगाई हुई अर्जों बाबा श्याम जरूर स्वीकार करते हैं। हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में हर भक्त की अर्जों को मंदिर के आचार्य द्वारा बाबा श्याम के समक्ष रखा जाता है। संध्या ग्याल आरती में भक्तों का उमंग देखते ही बन रहा था।

रांची के कई इलाकों में कल से रहेगी चार दिनों तक पेयजलापूर्ति ठप



रांची : रांची के कई इलाकों में चार दिनों तक पेयजलापूर्ति सेवा ठप रहेगी। इनमें नयासराय, विधानसभा का क्षेत्र, विस्थापित कॉलोनी, सीआरपीएफ कैम्प, जगरनाथपुर गांव का नाम शामिल है। इन इलाकों में पाइपलाइन से होनेवाली पेयजल आपूर्ति 10 फरवरी से 14 फरवरी तक पाइपलाइन की शिफ्टिंग के चलते ठप रहेगी। यह जानकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने दी। विभाग की ओर से पेयजल आपूर्ति बंद रहने पर विभिन्न इलाकों में पाइपलाइन लिफ्टेज को ठीक करने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नयासराय में रेलवे आरोबी का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से सड़क चौड़ीकरण और पेयजल पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। वहीं विधानसभा और इसके आसपास के इलाकों में रांची और पिस्का रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे चार लेन के रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होने से इन इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। एतवा उरांव क्रिकेट

शहीद एतवा उरांव क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दिन बुढ़मू की टीम विजयी रही



रांची : मांडर प्रखंड अंतर्गत बुढ़मुखुरा स्थित खेल मैदान में शनिवार को पांच दिवसीय शहीद एतवा उरांव क्रिकेट टूर्नामेंट-2025 के तीसरे दिन का उदघाटन आशीष गुप्ता, गोल्ड खलखो, राहुल शाही, वसीम खान, कुरबान खान, अफान खान ने खिलाड़ियों से परियत्र कर किया। शनिवार को पहला मैच बुढ़मू एलेवन और करकट एलेवन के बीच खेला गया, जिसमें बुढ़मू की टीम पांच विकेट से विजयी रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए करकट की टीम 65 रन बनाकर आउट हो गयी। इसके जवाब में बुढ़मू की टीम 5 विकेट शेष रहते 66 रन बनाकर मैच जीत लिया। वहीं दूसरा मैच पटान ब्रदर्स नैसार खान और चकमे एलेवन के बीच खेला गया। इसमें पटान ब्रदर्स की टीम 61 रन ही बना सकी। इसके जवाब में चकमे एलेवन ने 62 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। शनिवार को तीसरा मैच बुढ़मू एसेवन और चकमे एलेवन के बीच खेला खेला गया। जिसमें बुढ़मू एक विकेट से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए चकमे एलेवन 70 रन बना कर आउट हो गई। इसके जवाब में बुढ़मू की टीम एक विकेट शेष रहते 71 रन बना लिए। इससे पहले कुंड़ी की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मैच के अंतिम आशीष गुप्ता और राहुल शाही थे। बुढ़मू एलेवन टीम के मुन्ना अंसारी को सर्वोत्तम खान ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नौ फरवरी को पहला मैच गोविंदपुर व टॉगर और दूसरा मैच सोसई आश्रम व चोरेया के बीच खेला जाएगा। तीसरे दिन के मैच के सफल आयोजन में मो. रशीद, शनिदेव खलखो, मो. रशीद, तावरक खान, फ्रांसिस जैवियर खलखो, मो शाकिब सहित कई स्थानीय ग्रामीणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

श्री चैती दुर्गा मंदिर से 501 महिलाओं ने निकाली मय्य कलश यात्रा



रांची : श्री चैती दुर्गा मंदिर, भुताहा तालाब का शनिवार को नौवां वार्षिक उत्सव पर सुबह 8:30 कलश यात्रा निकाला गया। महोत्सव के पहले दिन सुबह 5:30 बजे माता का पट खोला गया। सुबह 7:30 बजे माता की आरती की गयी। सुबह 9:30 बजे गाजे-बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गयी। जो महावीर चौक, गांधी चौक, शहीद चौक, सुभाष चौक निकोण हवन कुंड से कलश में जल लेकर कवहरी रोड जयपाल सिंह स्टेडियम से होते हुए श्री चैती दुर्गा मंदिर प्रांगण पहुंचा। इस कलश यात्रा में 501 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा को पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा ने पूजा सम्पन्न करायी। उसके बाद गौरी पूजन, वेदी पूजन, आरती और पुष्पांजली हुई एवं भोग का प्रसाद वितरण किया गया। रविवार को सुबह 9 बजे माता का महा स्नान, दुर्गा अस्टमी पाठ, आरती एवं पुष्पांजलि होगी। सोमवार को दोपहर 1 बजे से महाभंडारा एवं शाम 6:30 बजे महाआरती की जाएगी। मौके पर किशोर साहू, रमेश सिंह, शंकर दुबे, उदय साहू, गोपाल पारीक, नन्द किशोर सिंह चंदेल, संजय सिंह लल्लू, नमन भारतीय, संजय तिवारी, राहुल रजक, मुकेश सिंह, महिहत रजक, अभिषेक रजक, अर्जुन सिंह, आशीष रजक, मोहित रजक, आकाश रजक, रोहन सिंह, सोरव रजक, आर्य रजक, प्रियांशु वर्मा और महिलाओं मीनू देवी, अनजना देवी, अनिता देवी, रिमाझिम, इशिका, कृती, सीमा देवी, सुधा देवी, मंजू कुमारी, किरण देवी समेत सैकड़ों लोग शामिल थे।

एक नजर

दिल्ली में भाजपा की जीत पर जिला अध्यक्ष ने टी शमकामनाएं



बोकारो : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली से आप दा को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, इसके लिए मैं दिल्ली की जनता जनार्दन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नन्दा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र सचदेवा जी एवं सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई व शुभकामनाएं।

तेलगाड़िया मोड़ के पास ट्रेलर व बोलेरो में सीधी टक्कर, बोलेरो चालक की मौत



बोकारो : बोकारो के तालगाड़िया मोड़ से इलेक्ट्रो स्टील जाने वाली सड़क पर ग्राम बघाडीह के समीप हुई। एक हादसे में एक बोलेरो गाड़ी और विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रेलर वाहन की टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बोलेरो चालक विवेक हाजरा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसा शुक्रवार रात लगभग 10:30 बजे हुआ, जब विवेक हाजरा इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के एक अधिकारी को उनके आवास छोड़कर वापस कंपनी की ओर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रहे एक भारी ट्रेलर वाहन ने उनकी गाड़ी को रगड़ते हुए पूरी तरह कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विवेक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकुश ग्राम, लाडी टोला निवासी 22 वर्षीय विवेक हाजरा के रूप में हुई। उनके पिता का नाम शिव प्रसाद हाजरा है विवेक हाजरा शादीशुदा थे और उनका एक छोटा बच्चा भी है। वे इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में स्टाफ को लाने-ले जाने का कार्य करते थे। उनकी असमय मृत्यु से परिवार पर गहरा आघात पहुँचा है। उनके निधन से परिवार का आर्थिक और मानसिक रूप से कठिन समय आ गया है। इस दर्दनाक हादसे से गुस्ताए गए वालों ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है।

राज्यपाल से मिला प्रशस्ति पत्र दिव्यांगों के लिए और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए करेगा प्रेरित : अनीता

धनबाद : पहला कदम स्कूल की सचिव अनीता अग्रवाल ने बताया कि बाबा श्याम की कृपा से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु शनिवार को पहला कदम को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करना ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे पहला कदम परिवार के लिए, साथ ही पूरे दिव्यांग बच्चों के लिए एवं पूरे जिले के लिए बहुत हर्ष की बात है। हम तब दिल से महामहिम को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे कार्यों का प्रतिफल जो आज राज्यपाल के द्वारा मिला है, यह प्रशस्ति पत्र हमें और भी दिव्यांगता के क्षेत्र में और भी उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा।

केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

बोकारो : जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ बांध कर हिंदुस्तान भेजे जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी के खिलाफ बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जमकर आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेसजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन एवं नारे बाजी करते हुए कहा हिन्दुस्तानिया का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान - मोदी सरकार जवाब दे। मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को बेहद अमानवीय तरीके से देश वापस भेजा गया है, वे भारत और भारतीयों का अपमान हैं, लेकिन मोदी सरकार खासोस बैठी हैं। अमेरिका द्वारा देश



और देशवासियों के अपमान और मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके उन्होंने कहा कि इन

खतरनाक घटनाओं के बावजूद केंद्र सरकार उदासीन और असहाय बनी हुई है। हमारे नागरिकों के लिए खड़े हों और मानवीय व्यवहार करने की

मांग करने की बजाय सरकार शर्मनाक तरीके से इन कार्रवाई को उचित ठहरा रही है। वैश्विक मंच पर हमारे नागरिकों की गरिमा और

अधिकारों की रक्षा करने में विफलता कर्तव्य का एक अक्षय्य परित्याग है। जो सरकार की अपने लोगों के प्रति साहस और प्रतिबद्धता की कमी को उजागर करता है। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी रास नारायण सिंह, सुशील कु झा, इंद्रदेव पासवान, हाजी अब्दुल मलिक, मनोज राय, जुबिल अहमद, हसनुला अंसारी, अशोक मिश्रा, समीर अंसारी, कमरुल हसन, जीतेन्द्र यादव, शिबू यादव, जीबन मंडल, अशोक मंडल, हरेंद्र तिवारी, महेश मंडल, सपन प्रमाणिक, पंकज महाथा, रीता सिंह, शकुंतला देवी, नेहा यादव, अजय शर्मा, पूनम यादव, रंजू देवी, लक्ष्मी देवी, अमानत हुसैन, जनक महतो सहित जिला, प्रखंड, नगर, मंडल के पदाधिकारी एवं ऊजावान कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोऑपरेटिव कॉलोनी में चलाया सदस्यता अभियान



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

बोकारो : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोऑपरेटिव कॉलोनी के बंगाली टोला क्षेत्र में सदस्यता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान की शुरुआत कन्हैया सिंह के द्वारा की गई। इस अवसर पर हीरालाल मांझी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर से कम से कम दो व्यक्ति को झामुमो से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार की मंईयां सम्मान योजना से हर घर की गरीबों को लाभ मिल रहा है, जिससे सरकार की लोकप्रियता

और विश्वास में लगातार वृद्धि हो रही है। यह क्षेत्र हमेशा झामुमो का मजबूत गढ़ रहेगा। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में सरकार नहीं बनी तो केंद्र सरकार और सेल के माध्यम से गरीबों को उजाड़ने का निर्देश दे सकती है। हालांकि, झामुमो इस तरह के कदमों को कभी सफल नहीं होने देगा और जनता के हक की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में लोग झामुमो से जुड़े रहे हैं मौके पर बिके सिंह सोनू कुमार थुना कुमार बबलू कुमार उपस्थित थे।

10 से शुरू होगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

धनबाद : फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। 10 फरवरी को जिले के 2248 बूथ पर 4496 दवा प्रशासक द्वारा 26 लाख से अधिक लोगों को अपने सामने दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित है। अभियान को सफल बनाने के लिए 428 सुपरवाइजर भी क्रियाशील रहेंगे। वहीं छूटे हुए लोगों को 11 से 25 फरवरी तक दवा प्रशासक द्वारा घर-घर जाकर लोगों को अपने सामने डीईसी एवं एल्वेन्डाजोल की खुराक खलाई जाएगी। दवाई लेने के बाद यदि किसी व्यक्ति के शरीर में माइक्रो फाइलेरिया की मौजूदगी होगी तो उसे सरदर, बुखार होने की संभावना है। अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को सिविल सर्जन डॉ चंद्र भानु प्रतापन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मीडिया को बताया कि फाइलेरिया दिव्यांगता पैदा करने वाली द्वितीय सबसे बड़ी लार्वाज



बीमारी है। इसकी वजह से हाथ, पांव का फूलना और हाइड्रोसील होता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वर्ष में एक बार डीईसी एवं एल्वेन्डाजोल दवा का खुराक लेने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिविल सर्जन ने कहा कि फाइलेरिया गंदे पानी में पनपने वाली सबसे अधिक आबादी वाले संक्रमित मादा वयुलेक्स मच्छर के काटने से होती है। जो मानव के पूरे जीवन काल में करोड़ों माइक्रो फाइलेरिया के रोमाणुओं को जन्म देता है। इसलिए अभियान के दौरान सभी लोगों को दवाई का सेवन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सभी सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ सब सेंटर, सदर अस्पताल, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल व धनबाद रेलवे स्टेशन पर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इस तरह ही जाएगी दवा की खुराक 1 से 2 साल तक के बच्चों को एल्वेन्डाजोल की आधी गोली पानी में घोलकर। 2 से 5 वर्ष तक को डीईसी की एक गोली, एल्वेन्डाजोल की एक गोली, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक डीईसी की 2 गोली, एल्वेन्डाजोल की एक गोली, 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डीईसी की तीन गोली 300 एवं एल्वेन्डाजोल की एक गोली।

झामुमो का सदस्यता अभियान हेमंत सरकार के प्रति लोगों का विश्वास : मंटू



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

बोकारो : शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुमीडीह क्षेत्र में सदस्यता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान की शुरुआत महानगर संयोजक प्रमुख मंटू यादव द्वारा की गई। मंटू यादव ने इस अवसर पर कहा कि कुमीडीह और बालीडीह क्षेत्र झामुमो का गढ़ है और यहां के प्रत्येक घर से कम से कम दो व्यक्ति को झामुमो से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। मंटू यादव ने प्रदेश सरकार की

उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की मंईयां सम्मान योजना से हर घर की गरीबों को लाभ मिल रहा है, जिससे सरकार की लोकप्रियता और विश्वास में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की गोली खिलाएंगी। यह दवा सभी स्वास्थ्य केन्द्र पर भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सभी शिक्षण संस्थान, कार्यालयों सहित अन्य जगहों पर बूथ लगाकर लोगों को दवा खिलायी

सरकार रेलवे और सेल के माध्यम से गरीबों को उजाड़ने का निर्देश दे सकती है। हालांकि, झामुमो इस तरह के कदमों को कभी सफल नहीं होने देगा और जनता के हक की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। सदस्यता अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग झामुमो से जुड़े और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की सदस्यता अभियान में मुख्य रूप से रामपियरे मिस्त्री, विनोद कुमार, रिकी कुमारी, परमशीला देवी, नूतन देवी, रमेश कुमार, फूलवायु देवी, गीता देवी, रोशन कुमार, रोहित कुमार, अशोक कुमार, सचेंद्र कुमार, बाला दीक्षित, आदित्य दीक्षित, जया कुमारी, बीना देवी, फूलकरू देवी, रामाशीष गुप्ता, रीना देवी, रानी देवी, सोनी देवी, राधिका देवी, लक्ष्मी कुमारी, रामजी प्रजापति, इंदु कुमारी सुनील सिंह, शंभू गुप्ता, कृष्ण विनोद सोरेन संजय पांडे धनुलाल महतो इत्यादि।

प्रबंधन को गाड़ी मालिक के वेदना को समझना चाहिए : बिके चौधरी

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता


बोकारो : स्टील प्लांट के समान्य प्रशासन के अन्तर्गत भाड़े पर चलने वाले 80 कार, स्कार्पियो, बोलेरो इत्यादि चार चक्का वाहन का आज प्रात से चक्का जाम कर मजदूर मैदान में खड़ा कर दिया है, क्योंकि प्रबंधन अगले टेन्डर में मनमानी टर्म कन्डीशन देते हुए जो गाड़ी 2022 अप्रैल में खरीदी गई है वही गाड़ी समान्य प्रशासन टेन्डर में मंजूर करेगा। जबकि 2017 में प्रबंधन के SAP, मे दर्ज कि 2017 में खरीदी गई गाड़ी भी 2024 में निकाले जाने वाला टेन्डर में मंजूर किया जायगा। मालूम हो कि जितने भी 12 भेन्डर है सभी सेवानिवृत्त या निधन कर गये इस्पातकर्म का डिपेंडेंट है। मजदूर मैदान में मौके पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य सह जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री बि के चौधरी ने कहा कि प्रबंधन के दुलमुल निति का नतीजा है कि आज भी एस एल के आश्रित को



अपना रोजी रोटी खतरे में नजर आ रहा है। हमारी बात उच्च प्रबंधन से भी हुथी उसमे इतने वेदना को बताने का काम किये थे। मुझे देखने का आश्वासन भी मिला लेकिन प्रबंधन अपने निर्णय पर कायम रहा जो कहीं से भी उचित नहीं है प्रबंधन कोइनके वेदना को समझते हुए टेन्डर को केन्सील कर 2017 के आधार पर पुनः री टेन्डर करना चाहिए। मौके पर संजय कुमार सिन्हा, आनन्द मिश्रा, संजय कुमार सिंह, संतोष सिंह, मनोज सिंह, यारव मोटर, हुस्ने आरा उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

महुदा में विज्ञान सामाजिक और हस्त कला प्रदर्शनी का हुआ आयोजन



महुदा (धनबाद) : डीपी पब्लिक स्कूल महुदा में विज्ञान सामाजिक विज्ञान और हस्त कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ महुदा थाना की पुलिस इन्स्पेक्टर श्रीमती ममता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर एवं पीता काटकर किया उन्होंने प्रदर्शनी की खूब प्रशंसा करते हुए कहा कि डीपी पब्लिक स्कूल महुदा तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इस प्रकार का आयोजन समय-समय पर होना चाहिए जिससे बच्चों में रचनात्मक कलाओं का विकास होता रहे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशीष कुमार मंडल ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बच्चे जो कुछ भी कक्षा में सीखते हैं, प्रदर्शनी उन्हें सबके बीच करके दिखाने का सुंदर अवसर प्रदान करता है। बच्चे इसी प्रकार नई-नई तकनीक और कौशल से परिपूर्ण बने और अपने ज्ञान और कला का विकास करें तभी राष्ट्र का विकास होगा। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों के लिए पूनम डायनोस्टिक की ओर से 'निशुल्क ब्लड शुगर लेवल जाँच' का कैप भी लगाया गया कार्यक्रम के दौरान सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी चलती रही।

असंगठित मजदूरों को प्रयाप्त मात्रा में कोयला व डीओ ऑफर दे प्रबंधन : अशोक



धनबाद : बी सी सी एल सिजुआ क्षेत्र के तेलुमारी कोलियरी कोल डंप के असंगठित कोयला मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुये डंप के अध्यक्ष सह मुखिया अशोक टाकुर व मजदूरों के सरदार मनोज मल्लाह ने कहा कि प्रबंधन जानबूझकर मजदूरों का शोषण कर रही है,जबकि डी ओ ऑफर बढ़ाने व प्रयाप्त कोयला देने से हमसब लगभग 750 असंगठित मजदूरों को रोजी रोटी बरकार रह सकती है,मजदूर प्रतिनिधिय ने संयुक्त रूप से कहा कि जल्द हो हमारी मांगो का प्रबंधन निष्पादन नहीं करती है, तो बाध्य होकर तेलुमारी कोलियरी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम करके विरोध जताएंगे,50 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज व अब हमारी पीढ़ी ट्रक लॉडिंग का कार्य में लगे हैं,जरूरत पड़ी तो चरणबद्ध आंदोलन को होंगे बाध्य। तेलुमारी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी एस के दास में मीडिया से बातचीत में बताया कि डी ओ बढ़ाने व निरंतर उत्पादन के लिये समस्या का समाधान के लिये उच्च प्रबंधन से बात करके निष्पादन की बात कही। आक्रोशित मजदूरों ने कहा कि कोयला रहते डी ओ के अभाव में असंगठित मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो रहा है। जिसे प्रबंधन चाहे तो समाधान हो सकता है मौके पर रामचन्द्र प्रसाद, फेकू मल्लाह, भीम पासवान, विनोद कुमार, जितेंद्र कुमार, अजीत रावानी,सुरेश भुइया, विनोद सिंह,राजामा भुइया, एस सिंह, मैना देवी, कौशल्या देवी, पूजा देवी, उर्मिला देवी, दुलारी देवी, तेतरी देवी सहित सैकड़ों असंगठित मजदूर व एजेंट एस के दास, कोलियरी प्रबंधक संतोष चौधरी व अन्य उपस्थित थे।

तेलुमारी में बनेगा शिबू सोरेन नेचुरल पार्क



धनबाद : बाघमारा प्रखंड के तिलाटांड पहाड़ी पर जियारी मेला स्थान पर टूटी विधायक सह झामुमो के मुख्य सचिवके मथुरा प्रसाद महतो के अनुशंसा पर तिलाटांड पहाड़ी में शिबू सोरेन नेचुरल पार्क का निर्माण को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन नोडल पदाधिकारी सह जिला खेल अधिकारी उमेश लोहरा व जिला स्तरीय पर्यटन विशेषज्ञ संतोष पटेल ने क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर स्थानीय नेता जन प्रतिनिधियों व ग्रामीणों से बात करके रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। निरीक्षण अधिकारी श्री लोहरा ने जितेंद्र जीतु से खास बातचीत में बताया कि जांच रिपोर्ट जिला के बाद राज्य को भेजा जायेगा। तत्पश्चात पार्क निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है। मौके पर स्थानीय झामुमो के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुडू मुखिया संतोष कुमार महतो उर्फ पवन महतो, सनातन सोरेन, मनोज महतो, विधायक प्रतिनिधि बिरजू सोरेन,तुलसी महतो, उमेश टुडू सहित अन्य लोग मौजूद थे।

अपर्णा पब्लिक स्कूल में अभिभावकों ने सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन में उकेरी आकर्षक चित्रकारियां



धनबाद : शनिवार को अपर्णा पब्लिक स्कूल में जूनियर विंग में स्कूल के डायरेक्टर करुणेश कौशल एवं प्रिंसिपल अनूप नायक के सानिध्य में स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के बीच सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का आयोजन संपन्न हुआ। इस रोचक कंपटीशन में अभिभावकों ने दिए गए थीम पर एक से बढ़कर एक चित्रकारी प्रस्तुत की। स्कूल की निदेशिका रेनु कौशल ने बेहतरीन चित्रकारियों को पुरस्कार के लिए चुना और विजयी अभिभावकों को उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। रेनु कौशल ने कहा स्कूल में अभिभावकों के बीच सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन प्रतियोगिता उद्देश्य अभिभावकों का बोध करना है ताकि स्कूल के बाद घर में भी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ चित्रकारिता की बारीकियाँ एवं जीवन में इसकी महत्ता का मार्गदर्शन दे कर प्रेरित करें। सीट एंड ड्रॉ को सफल बनाने में स्कूल की शिक्षिका अनुप्रिया, कीया एव दीप्ति का महत्वपूर्ण योगदान था।

एक नजर

तालाब में डूबने से एक युवक की हुई मौत



सरिया (गिरिडीह) : शनिवार की शाम लगभग 4:00 बजे सरिया कोवड़िया टोला स्थित एक तालाब में डूब कर एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सरिया के ठाकुरबाड़ी टोला निवासी सरयू मंडल के 35 वर्षीय पुत्र भरत कुमार शनिवार को शाम लगभग 4:00 बजे उक्त तालाब में स्नान करने गया था। इसी क्रम में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, जिला परिषद सदस्य अनूप पांडेय घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर शोक संवेदना व्यक्त किया। वहीं तालाब में डूबने से मौत की खबर पाकर काफी संख्या में ग्रामीणों की भी भीड़ एकत्रित हो गई थी।

स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हम सभी की जिम्मेदारी है : डीसी

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
सिमडेगा : आगामी 11 फरवरी से शुरू होने वाली वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजन के मद्देनजर सिमडेगा उपयुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में पदाधिकारियों एवं केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपयुक्त एवं बैठक में उपस्थित अन्य पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि इस वर्ष सिमडेगा जिले में माध्यमिक परीक्षा के लिए 21 परीक्षा केंद्रों पर सात हजार चार सौ तिहत्तर एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 05 केंद्रों पर पांच हजार दो सौ अस्सी अर्थव्यय परीक्षा में हिस्सा लेंगे। उपयुक्त ने सभी केंद्र अधीक्षकों को उनके केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन पूरी पारदर्शिता के साथ एवं



कदाचार मुक्त तरीके से करने का निर्देश दिया। उपयुक्त ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। औचक निरीक्षण के दौरान कदाचार करते यदि कोई परीक्षार्थी पकड़े गये, तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट विभागीय निर्देशों के

सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपयुक्त ने परीक्षा केंद्रों में समय पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुंचाने हेतु सभी तैयारी पूर्व में ही पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। इसके अलावे परीक्षा केंद्रों के 500 गज की दूरी तक धारा 144 लागू करने और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने सहित आयोजित परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल रहित सम्पन्न हो, ये हम सभी के जिम्मेवारी व जवाबदेही है। उपयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने वाले अधिकारियों व व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आगे उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी व पुलिस अधिकारी

मॉनिटरिंग करें और परीक्षार्थियों को प्रवेश करने के बाद उन्हें परीक्षा समाप्ति के बाद ही बाहर आने दें। 11 फरवरी से जब तक परीक्षा संचालन रहे उस समय निर्वाचक से विद्युत का आपूर्ति करने हेतु कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल को निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक सौरभ ने माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा केंद्र पर सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। वहीं उन्होंने सभी केंद्र अधीक्षकों से कहा कि परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो सर्वप्रथम जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे।

संक्षिप्त खबरें

समारोह का आयोजन कर 12वीं के छात्रों को दी गयी विदाई



सरिया (गिरिडीह) : एसआरके डी ए वी सरिया में कक्षा 12 वीं के छात्रों के लिए शुक्रवार को विदाई समारोह तथा कक्षा दसवीं के छात्र-छात्राओं के लिए आशीर्वाचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका प्रारंभ हवन पूजा तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस तथा पूजन कार्यक्रम इंदर कुमार चौबे वह देवव्रत पांडेय ने कराया। इन सौके पर कक्षा 11वीं के छात्रों ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत व नृत्य की प्रस्तुति ने सबों का मन मोह लिया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य आर के सिंह ने सभी बच्चों को सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, अपने माता-पिता व विद्यालय का नाम रोशन करें। राष्ट्र निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। वहीं विद्यालय के शिक्षक पी झा, एस के मिश्रा, अनुज कुमार तथा रजत आनंद ने भी बच्चों को संबोधित किया। मौके पर सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित थीं।

माजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने कहा- सुशासन पर जनता की मुहर

सिल्ली : भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और सुशासन पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आप सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, घर-घर शराब पहुंचाने की कुटनीति और झूठ के सहारे भ्रम फैलाने की राजनीति से त्रस्त हो चुकी थी। जिलाध्यक्ष ने इस प्रचंड विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सवदेवा समेत बृहत् स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही, उन्होंने सभी विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जीत भाजपा के जनसेवा और राष्ट्रहित के संकल्प को और मजबूत करेगी।



मनरेगा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
सिमडेगा : जिला ग्रामीण विकास शाखा,सिमडेगा में मनरेगा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपयुक्त अजय कुमार सिंह के द्वारा सभी कर्मियों पदाधिकारियों एवं मनरेगा मेट,बागवानी सखी,मनरेगा श्रमिक से मनरेगा योजनाओं में किस प्रकार कार्य किया जाता है इसके बारे में जानकारी ली गई। ऐसे मनरेगा श्रमिक जिनके द्वारा सौ दिनों का रोजगार सुजन किया है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा अपने बागवानी योजना,

योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, टीसीवी योजना एवं अन्य योजनाओं में मजदूरों को कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। बागवानी सखी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना का देख-रेख यथा - जलकुण्ड निर्माण कराना, पौधों में समयव दवा एवं खाद डालने, पौधों में एच-टेका लगाने जैसे क्रियाकलाप करने हेतु लाभुकों को जानकारी दी जाती है। मनरेगा अंतर्गत उल्कृत कार्य करने वाले 2 बागवानी सखी, 4 महिला मेट एवं 4 मनरेगा मजदूर जिन्होंने सौ दिनों का रोजगार सुजन किया है। उन्हें अपने पंचायत में बहतर कार्य करने हेतु प्रशस्ती पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। साथ ही सिमडेगा जिला अंतर्गत मनरेगा योजना में विभिन्न पैरामीटर में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी सुलोचनी कुमारी, प्रखण्ड-केरसई एवं सरोजनी कुमारी, प्रखण्ड-ठेटईटांगर को प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया गया।

विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नर्स और कर्मचारियों के साथ की बैठक



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
सिल्ली : सिल्ली शनिवार को सिल्ली विधायक के जुझारू लोकप्रिय विधायक अमित महतो ने सिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सर्जन डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जायजा लिया। डॉ प्रियंका ने विधायक जी का अभिनंदन और स्वागत गुलदस्ता देकर किया विधायक जी ने कहा हम चाहेंगे की आने वाले दिनों में हम सब आगे कैसे बढ़ें और कैसे अपने बेहतर सेवाएं दे सके। इसको लेकर आप को प्रयास करना है। विधायक जी ने कितने डॉक्टर है, कितने नर्स हैं, कितने दवा उपलब्ध है, सबकी जानकारी ली। विधायक जी ने कहा अस्पताल के पीछे कुछ दवा फेके जाने की जानकारी मिली है इस पर डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि दवा मिली थी आयरन सिरप था और वह एम्सप्राथमिक भी नहीं था जिससे भी यह किचा खानबीन चल रही है थाने में भी रिपोर्ट कर दी गई है जांच चल रही है जैसे ही दोषी सामने आता है उसे पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी ने कहा ऐसा काम करें जिससे आप लोगों के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हम आप लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं। हर व्यक्ति अपने आप की कर्तव्यों को समझ ले हम लोग बेहतर कर सकते हैं। जो उंगली आप पर उठेगी तो वह उंगली हम पर भी उठेगी जो लोगों का हम पर विश्वास है उस विश्वास को डूबने नहीं देना है आप लोग बेहतर करने का प्रयास करें। आप लोगों को कोई दिक्कत आती है उसे खत्म करने का कोशिश हम करेंगे इस अस्पताल के लिए जिस चीज की जरूरत होगी उसे पूरा करने का पूरा मेरा सहयोग रहेगा।

पदाधिकारी ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण

खूंटी : उपयुक्त लोकेश मिश्रा के निदेशानुसार जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुभन सिंह ने शनिवार को खूंटी सदर प्रखंड की बिरहु पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित विलेज हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उन्हें पोषण सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों, गर्भवती एवं धारी माताओं के स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, आयरन व फोलिक एसिड की गोणियों के वितरण तथा अन्य पोषण संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने उपस्थित लाभुकों को पोषण और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया।

विधायक ने किया झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव के पोस्टर का विमोचन



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
खूंटी : तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने शनिवार को गवर्नमेंट बालिका विद्यालय के ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ के झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। महोत्सव का आयोजन 23 फरवरी को होगा। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विगत 15-20 वर्षों तक कला, संस्कृति, साहित्य, खेल, सामाजिक, पत्रकारिता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को

कारगिल मेला धूमधाम से हुआ संपन्न



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
सिल्ली : राहें 8 फरवरी सिल्ली थाना अंतर्गत राहें प्रखंड के बंसिया गांव में कारगिल युद्ध में शामिल योद्धाओं के सम्मान में कारगिल युद्ध के समय से ही हर साल उनके सम्मान में कारगिल टीवील मेला का आयोजन बंसिया गांव के ग्रामीणों के साथ ही क्षेत्रीय गण मान्य लोगों के सहयोग से किया जाता है। कारगिल मेला संचालन समिति के अध्यक्ष सुभन साहू ने बताया कि मेला में पूरे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कर्मों बेस सभी गांवों के वर्तमान सैनिक, पूर्व सैनिक, सैनिकों के विधवाओं या उनके आश्रितों के 66 सैनिकों को मेला में हजारों हजार लोगों की उपस्थिति में उन्हें माला पहना कर शाल ओढ़ाकर मोमोंटो बुके देकर सम्मानित किया जाता है। साथ ही पूरे क्षेत्र से कृषि मेला में किसान अपने उपज का प्रदर्शनी लगाते हैं, कृषि प्रदर्शनी में अच्छे उपज करने वाले कृषक किसानों

को चयन समिति द्वारा चयनित किसानों को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरे स्थान के साथ ही बाकी दस किसानों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मेला में मुर्गा लड़ाई, चोड़ल, वाई नाच शांति देवी एवं शीतला देवी, बूगी बूगी, इस मेला में शामिल होने गांव के बाहर पढ़ने लिखने वाले, व्यापार करने वाले, नौकरी रोजगार करने वाले अधिकांश लोग अपनी भागीदारी निभाने मेला में शामिल होने पहुंचे थे। मेला में मुख्यातिथि सिल्ली के लोकप्रिय विधायक अमित महतो, विधायक प्रतिनिधि, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्यों के साथ ही गांव एवं क्षेत्र के समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ सुबह से देर रात तक अपनी गरिमाई उपस्थिति में मेला संपन्न कराए। मेला के शांतिपुर सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होने पर कारगिल मेला समिति बंसिया के लोगों ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दूर दराज एवं अगल बगल से मेला में पथारे सभी सम्मानित लोगों, माताओं बुजुर्गों, बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया है। पूरे मेला क्षेत्र के चारों ओर हर जगह पर 250 की संख्या में वॉलेंटियर नव युवकों का दल अपनी सरसरी निगाहों में पूरे मेला परिसर को निगरानी के साथ व्यवस्थित करने में एकजुटता से लगे हुए थे।

भू माफियाओं पर डीसी की बड़ी कार्रवाई 403 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी रद्द

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
रामगढ़ : रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने भू माफियाओं पर एक बार फिर गाज गिराई है। यहाँ गैर मंजूर आ जंगल जमीन की अवैध जमाबंदी को उन्होंने रद्द कर दिया है। मांडू प्रखंड के चपरा मौजा में 403.30 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी शनिवार को रद्द कर दी गई है। डीसी चंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मांडू प्रखंड के चपरा मौजा में उमापदो सेन मोदक, इशहाक मियां और विश्वनाथ सेन मोदक के नाम पर अवैध जमाबंदी रद्द रही थी। थाना संख्या 94, खाता संख्या 7 में इन तीन भू माफियाओं ने इस बड़े भू-भाग पर



अपना कब्जा होने का दवा दस्तावेजों के आधार पर किया था। लेकिन वे सारे दस्तावेज फर्जी निकले। उमा पदों से मोदक के नाम पर 168.30 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी कायम थी। इशहाक मियां के नाम पर 150 एकड़ जमीन की जमाबंदी कराई गई थी। साथ ही विश्वनाथ सेन

कायालय को दस्तावेज भेजा गया। न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई एवं न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार-झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 एच के तहत कायम संहितात्मक जमाबंदी को रद्द किया गया। जिसके बाद विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत जमाबंदी रद्द की संपुष्टि के लिए प्रस्ताव आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग को भेजा गया है। डीसी में संहितात्मक जमाबंदी रद्द करने का कारण भी बताया है। सबसे मूल कारण यह है कि उमापदो सेन मोदक, इशहाक मियां और विश्वनाथ सेन मोदक दस्तावेज तो प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां से पूरी सुनवाई के बाद डीसी

कब्जा नहीं है। रिटर्न "के" प्रपत्र दाखिल नहीं होना एवं इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरा कारण यह है कि "एम" प्रपत्र पर लगान निर्धारण किया जाना आवश्यक है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पंजी-2 में जमाबंदी खोलने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश नहीं है। रैयत मान्यता अभिलेख पर सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर नहीं है। वन भूमि पर बन्दोबस्ती सरकार के आदेश के बिना विधि विरुद्ध है। डीसी चंदन कुमार को इस कार्रवाई से झारखंड सरकार को 800 करोड़ के राजस्व का फायदा हो सकता है।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा
द्वारा आयोजित

विशेष लोक अदालत
(वैवाहिक विवाद एवं चेक अनादरण से संबंधित)
दिनांक 22 फरवरी, 2025 शनिवार पूर्वाह्न 10.30 बजे से कार्य समाप्ति तक
स्थान: लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर, लोहरदगा

सर्व साधारण को सृष्टित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों को उक्त वैवाहिक विवाद एवं चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत में सूचीबद्ध करार कर निःशुल्क, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त करें और इस आयोजन को सफल बनावें।

नोट- इस संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु आप किसी भी कार्य दिवस के दिन पूर्वाह्न 10:30 बजे से कार्य अवधि तक लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर, लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा से सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री हरिस बिन जगम
पुलिस अधीक्षक
सदर

उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा
श्री राजकमल मिश्रा
प्रधान जिला एवं सहाय्यी अधिकारी
सदर

ध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा
PR.NO.346097 Lohardaga(24-25):D

झारखण्ड सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोदा, रांची।

अतिअल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं० -32/2024-25
Email Id - eedwsd.gonda@gmail.com

- दिनांक का नाम
- विधानसभा का नाम
- परिमाणु (रिक्त की निजी की अंतिम तिथि एवं समय)
- निविदा प्राप्त की तिथि एवं समय
- निविदा स्थान की तिथि एवं समय
- परिमाणु (रिक्त की का स्थान)
- निविदा प्रति एवं चयन के का स्थान
- कार्य की विवरणी

क्र.	कार्य का नाम	प्रारंभिक राशि	अनुमानित की राशि	B.O.Q. का मूल्य	कार्य की अवधि
1.	Improvement of water supply by replacement of damaged U-PVC pipe & its fittings, sanitary fittings and other Miscellaneous works at state Election Commission, Jharkhand Ratan Ranchi Ranchi under D. W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	273181.00	6000.00	750.00	15 Days
2.	Renovation of Toilet Cum Bathroom & Improvement of W/S and sanitary fittings, Sewerage Work and other Misc. Work at Qrt.No.25, Judge Colony Kanke Road, Ranchi under D.W.& S.Division, Gonda, Ranchi.	641994.00	13000.00	1250.00	30 Days
3.	Special Repair of commercial RO water purifier cum water cooler with construction of platform and replacement of damaged water supply pipe line and CP fittings at 40 court building and other places in the campus of Civil Court, Ranchi under D.W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	752355.00	16000.00	1250.00	15 Days
4.	Renovation of Toilet Cum Bathroom & Improvement of W/S and sanitary fittings & Sewerage Work of Civil Judge Junior Division and Replacement of all Sanitary fittings Bathroom of Principal Judge & Green Room at Main Building and 40 Courts Building, Civil Court, Ranchi.under D.W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	844536.00	17000.00	1250.00	15 Days
5.	Septage & Renovation of Toilet Cum bath room & Improvement of W/S and sanitary fittings & Sewerage work & other Misc. Work at Qrt.No-41, Ground Floor Judge Colony Kanke Road Ranchi under D.W.& S.Division, Gonda, Ranchi.	865603.00	18000.00	1250.00	15 Days
6.	Construction of 300mmx165mmx210.00mm deep HYDT with installation of 2.00HP Submersible Pump Motor, Installation of Iron Renovation Filter Plant (Size-18x65) FRP Huby Double Vessel Capacity 5000 LPH With GCI Sheet and other Misc. Works at Sr. Officer flat No 05 Dindyal Nagar Buntly Road Ranchi Under D. W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	1353020.00	28000.00	2500.00	07 Days
7.	Supplying & Laying of 32mm & 25mm dia LPVC seb-30 pipe for Gasding premises Area at Hon'ble Governor of Jharkhand of Kanke Road, Ranchi under D.W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	1648408.00	33000.00	5000.00	30 Days

आम आदमी पार्टी की हार, भाजपा की सरकार...



अरविंद केजरीवाल का अहंकार ही उनको ले डूबा। हम जानते हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हड़मोदी जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इस जन्म में तो आप हरा नहीं सकते। ऐसी भाषा को सुनकर यही लगता है कि केजरीवाल को अहंकार हो गया था। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे, इन सब आरोपों पर उन्होंने हमेशा भाजपा पर निशाना साधने का काम किया। जबकि यह सारा काम जांच एजेंसियों और सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का था, लेकिन उनका आरोप भाजपा पर था। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की इस बात को झूठ ही माना। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस तथ्य को भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी का भी दिल्ली में व्यापक राजनीतिक प्रभाव है। लोकसभा के चुनाव में भाजपा को दिल्ली की सभी सीटें प्राप्त होनी चाहिए थीं, इसको प्रमाणित भी करता है। विधानसभा में भाजपा को भले ही कम सफलता मिली हो, लेकिन इससे भाजपा के राजनीतिक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। बड़ी बात यह भी है कि भाजपा ने भी इस चुनाव को आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही लड़ा। भाजपा ने लोहों को लोहों से काटने की रणनीति पर काम किया, जिसमें भाजपा ने बाजी मार ली। दिल्ली के चुनाव में इस बार जिस प्रकार से आधुनिक संघर्ष तकनीक का प्रयोग किया गया, उसने भी केजरीवाल की

दिल्ली चुनाव के बारे में मतदान के बाद किए गए सर्वेक्षण परिणाम को पुष्ट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सर्वेक्षण कई बार गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन इस बार का सर्वेक्षण सटीक होकर वही तस्वीर दिखा रहा है, जो उन्होंने देखा। इससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपना स्वयं का परीक्षण करने में चूक गए। उनको लगता ही नहीं था कि उनकी पार्टी सत्ता से बाहर भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बारे में यह भी कहा जा रहा आम आदमी पार्टी को दूसरों ने कम उनके अपनों ने ही पराजित किया है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस बात से नाराज थे कि आतिशी मालेना को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। जबकि आम आदमी पार्टी में इस पद के लिए कई दावेदार थे। अतः यह स्वाभाविक थी जो नेता राजनीतिक आकांक्षा को लेकर कार्य कर रहे थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने के बाद आतिशी खुद नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जीत कर आएँ, क्योंकि वे जीतते तो आतिशी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता। इसलिए यह कहना उचित होगा कि आम आदमी पार्टी की पराजय में उनके अपनों का ही योगदान है। रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी करदी। कहा यह भी जा रहा है कि इंडी गठबंधन का विखराव भी आम आदमी पार्टी की पराजय का कारण बना। अभी तक राजनीतिक शून्यता का टैग लगा चुकी कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया। कांग्रेस ने हालांकि उन्हीं क्षेत्रों में बहुत परिश्रम किया, जहाँ उनका व्यापक प्रभाव था। लगभग बसों सीटों पर किए गए इस प्रयास के कारण भले ही कांग्रेस अंधेकृत सफलता के द्वार तक नहीं पहुँची, लेकिन कांग्रेस के इसी प्रयास ने आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता के मार्ग का दरवाजा बंद करने में प्रमुख भूमिका निभाई। पिछले लोकसभा चुनाव में साथ जीते मरने को कसम खाने वाले भाजपा विरोधी राजनीतिक दल एक मंच पर आकर मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में कहीं कहीं ऐसा दिखा भी, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल खुद ही अकेले मैदान में कूद गए। कांग्रेस भी मैदान में आ गई और विपक्ष का वोट, जो अब तक केजरीवाल को ही मिलता था, वह नहीं मिल सका। इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

दिल्ली राज्य में विधानसभा की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इसमें अब तक अपने आपको अपराजेय मान रही आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के साथ ही सरकार बनने का रास्ता साफ कर दिया है।

संपादकीय

मोदी और कांग्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का समापन करते हुए राज्य सभा में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की फेहरिस्त पुरानी तर्ज पर एक बार फिर प्रस्तुत की कि किस तरह उनकी आर्थिक नीति आगे बढ़ रही है और किस तरह उनकी सरकार के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबों की सीमा लांघकर मध्यमवर्गीय दलहलू पर पहुँचे हैं। उनके भाषण का एक प्रमुख स्वर वही था जो प्रायः चुनावी सभाओं में है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने फिर कहा कि उनकी प्रथमिकता परिवार है जबकि भाजपा की प्रथमिकता राष्ट्र है। कांग्रेस की कोई भी नीतियाँ परिवार विशेष को केंद्र में रखकर बनती हैं तो उनकी नीतियाँ राष्ट्र को केंद्र में रखकर बनती हैं। मोदी के अनुसार कांग्रेस का राज अत्याधिक धीमी आर्थिक प्रगति का राज था, जबकि एनडीए का वर्तमान शासन तीव्र आर्थिक प्रगति का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शासन तुष्टिकरण का शासन था जबकि एनडीए का शासन संतुष्टिकरण का है। यूँ तो मोदी के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। कांग्रेस के परिवारवाद का जो आरोप लगाते रहे हैं, उसकी ही पुनरावृत्ति थी। विशेष बात यह थी कि उनके प्रभावी वक्तव्य के आगे कांग्रेस को निरीहता ही उजागर हो रही थी। अगर कांग्रेस का गांधी परिवार की पृष्ठभूमि और उसके मौल्यशास्त्री अतीत का मूल्यांकन करें तो मोदी का प्रहार कहीं से भी अतिवादी प्रतीत नहीं होता है। कल्पना करिए कि अगर सोनिया गांधी राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहन नहीं होती तो क्या सचमुच में उनमें वह राजनीतिक क्षमता और भारतीय समाज को समझने की प्रतिभा थी कि वह कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी का अध्यक्ष बनती। उससे आगे क्या राहुल गांधी सचमुच उतने क्षमतावान राजनीतिज्ञ हैं, जितना कांग्रेस के शीर्ष नेता के रूप में अथवा विपक्षी दल के रूप में होना चाहिए। जाहिर है शीर्ष नेता के रूप में अथवा हेरिसित है जो प्रायः कांग्रेस को दुविधा में डालती रहती है। मोदी के प्रहारों से कांग्रेस तभी बच सकती है जब वह अपने भीतर गुणात्मक और रचनात्मक परिवर्तन करे अन्यथा परिवारवाद का जो हथियार मोदी के हाथ में है वह हमेशा चलता रहेगा और कांग्रेस हमेशा वैकफुट पर रहेगी।

चितन-मन

सर्वव्यापक और न्यायकारी ईश्वर

ईश्वर का दंड एवं उपहार दोनों असाधारण हैं। इसलिए आस्तिक को सदा ध्यान रहेगा कि दंड से बचा जाए और उपहार प्राप्त किया जाए। यह प्रयोजन छुट्टे पूजा-अर्चना, जप-ध्यान से पूरा नहीं हो सकता। यह भावनाओं और क्रियाओं को उत्कृष्टता के साँचे में ढालने से ही पूरा होता है। न्यायनिष्ठ जज की तरह ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अपना गुणगान करने वाले के साथ यदि वह पक्षपात करने लगे, तब उसकी न्याय व्यवस्था का कोई मूल्य न रहेगा, सृष्टि की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। सबको अनुशासन में रखने वाला परमेश्वर स्वयं निरमल व्यवस्था में बंधा है। यदि वह उत्कृष्टता व अत्यवस्था बरतेगा तो फिर उसकी सृष्टि में पूरी तरह अंधेरा फैल जाएगा। फिर कोई उसे न तो न्यायकारी कहेगा और न समदर्शी। भगवान को हम सर्वव्यापक व न्यायकारी समझकर ईश्वर के दंड से डरें। उसका भक्त वत्सल ही नहीं, रौद्र रूप भी है, जो रुग्ण, मूक, बधिर, अंध, अपंगों की दशा देखकर सहज समझा जा सकता है। केवल बंशी बजाने वाले और रास रचाने वाले ईश्वर का ही ध्यान न रखें। उसका एक त्रिशूलधारी रूप भी है, जो दुरात्माओं का दमन व मर्दन करता है। न्यायनिष्ठ जज की तरह ईश्वर को भी भक्त-अभक्त, प्रशंसक-निंदक का भेद किए बिना व्यक्ति के शुभ-अशुभ कर्मों का दंड या पुरस्कार देना होता है। उपासना का उद्देश्य ईश्वर से अनुचित पक्षपात करना नहीं होना चाहिए। वह हमें सदावृत्तियों में संलग्न रहने और सततयत्न से विचलित न होने को दृढ़ता प्रदान करे। यही ईश्वर की कृपा का सर्वश्रेष्ठ चिह्न है। आस्तिक या नास्तिक को पहचान तिलक, जनेऊ, कंठी, माला आदि के आधार पर नहीं, वरन् भावनात्मक व क्रियात्मक गतिविधियों को देखकर ही होती है। आस्तिक की मान्यता प्राणिमात्र में ईश्वर की उपस्थिति देखती है। इसलिए उसे हर प्राणी के साथ उदारता, आत्मीयता व सेवा सहायता पर व्यवहार करना पड़ता है। भक्ति का अर्थ है- प्रेम। जो प्रेमी है, वह अपने क्रियतम को सर्वव्यापक देखेगा और सभी से सौम्यतापूर्ण व्यवहार कर भक्ति भावना का परिचय देगा। ईश्वर दर्शन का यही रूप है। हर चर-अचर में छिपे परमात्मा को जो अपनी ज्ञान दृष्टि से देख सका और तदनुसृत्य कर्तव्य निर्धारण कर सका, मानना चाहिए, उसे ईश्वर दर्शन का लाभ मिल गया। अपने में परमेश्वर और परमेश्वर में अपने को देखने की दिव्य दृष्टि जिसे मिल गई, समझे उसने पूर्णता का जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।



कृष्णगोहन झा

दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम 27 साल के बाद भाजपा के लिए सत्ता में वापसी का संदेश लेकर आए हैं। उसने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 48 सीटें जीत कर सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर लिया है जबकि 2015 और 2020 के चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, सत्येन्द्र जैन, सोमनाथ भारती सहित अनेक दिग्गज अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हो पाए लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी मालेना ने भाजपा उम्मीदवार पूर्व सांसद रमेश विष्ट की को कालकाजी सीट पर हराकर चुनाव जीत लिया। कांग्रेस को तो

दिल्ली में 'आप' के पराभव से पार्टी के भविष्य पर सवाल

सदन की 70 में से एक भी सीट के मतदाताओं ने जीत का स्वाद चखने का मौका नहीं दिया। संदीप दीक्षित और अलका लांबा जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है- 'और लड़ो आपस में'। मतदाता साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार विजय के लिए उमर अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई को बहुत बड़ा कारण मानते हैं। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस भी शामिल है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दलों तुणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को समर्थन प्रदान किया था। चुनाव अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जो तीखे हमले किए उसे इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों ने पसंद नहीं किया। दिल्ली विधानसभा का यह चुनाव यूँ तो मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का चुनाव था परन्तु इन चुनावों ने सारे देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया था। सारे देश की नजरे दिल्ली विधानसभा के

चुनाव परिणामों पर टिकी हुई थीं। भाजपा ने 27 साल बाद जिस तरह शानदार विजय के साथ दिल्ली प्रदेश की सत्ता में वापसी की है उसने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई लोकप्रियता पर मुहर लगा दी है। केजरीवाल को तीन हजार से भी अधिक वोटों से हराने वाले भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा संभवतः दिल्ली के नये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिल्ली के पिछले तीन विधानसभा चुनावों की भाँति ही इन चुनावों में भी आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही थामे हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी विजयास पात्र आतिशी मालेना को बिठाने के अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए थे। पार्टी ने चुनाव के लिए जो गौत जारी किया था उसमें भी केजरीवाल का ही महिमा मंडन किया गया था परन्तु इस बार उनके अभिमानल की चमक फीकी दिखाई दे रही थी। भाजपा के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक कर चुनावों को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया था। खुद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली सीट जीतना एक किंग्स साबित हो रहा। उनके

खिलाफ कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में थे। गौरतलब है कि संदीप दीक्षित की माँ स्वर्गीय शोला दीक्षित और प्रवेश वर्मा के पिता स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा भी अतीत में कांग्रेस और भाजपा शासन काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। केजरीवाल ने अपनी रैलियों में और पत्रकार वातावरण में अपने दोनों प्रतिद्वंद्वी दलों भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस और भाजपा भी अपनी रैलियों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यमुना की सफाई, प्रदूषण, सड़क जैसे मुद्दों पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बचाव की मुद्रा में थी। यमुना की सफाई का वादा पूरा न कर पाए के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से माफी मांगने भी मांगी। यमुना के पानी में जहर मिलाने का जो आरोप उन्होंने हरियाणा सरकार पर लगाया वह मनगढ़ंत आरोप केजरीवाल के लिए ही मुसीबत बन गया। इस आरोप के लिए उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों से तीखी आलोचना सहनी पड़ी। केजरीवाल के इस पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि इस तरह का आरोप उन्होंने

चुनाव के पहले क्यों नहीं लगाया। कथित शराब धोखले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी ने भी पार्टी की छवि को धूमिल करने में अहम भूमिका निभाई। आम आदमी की सच्ची हितैषी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल की कथित रूप से विलासिता पूर्ण जीवन शैली को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने जो हमले किए उनको गलत साबित करने के लिए केजरीवाल मतदाताओं को कोई सफाई पेश नहीं कर पाए। दिल्ली में खुद को और अपनी पार्टी को अजेय मानकर चुनाव मैदान में उतरना ही केजरीवाल को महंगा साबित हुआ। इसके अलावा चुनाव मैदान में कांग्रेस की पूरी दमखम के साथ अपनी मौजूदगी ने भी केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा किया। कांग्रेस को यह अच्छी तरह मालूम था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो दिल्ली में भाजपा की ही सरकार बनेगी उसके बावजूद कांग्रेस का पूरा चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के विरोध पर ही केन्द्रित था। कांग्रेस भले ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खता न खोल पाई हो परंतु आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पराजय से उसे यह लाभ अवश्य हो

सकता है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को केजरीवाल की ओर से कोई चुनौती नहीं दी जा सकेगी लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी वह रणनीति आगे चलकर कहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच नयी कड़वाहट का कारण तो नहीं बन जाएगी। अब जबकि चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है तब केजरीवाल को यह चिंता अवश्य सता रही होगी कि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की विदाई उसके विखराव का कारण बन सकती है। मत तो वे खुद चुनाव जीत पाए, न ही उनकी पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं कि वह विधानसभा में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल हो सके। इन चुनावों में केजरीवाल की पराजय और आम आदमी पार्टी के पराभव ने समूची पार्टी के भविष्य पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के स्थानित्व को भी प्रभावित कर सकते हैं।

गिग वर्कर्स: इनके बारे में भी सोचना होगा



कुमार समीर

मा रतीय कामगारों का वर्किंग कल्चर, स्टाइल, काम करने के घंटे हमेशा से बहस का मुद्दा रहे हैं। इस कड़ी में रिस्कड, अन-रिस्कड को केंद्र में रखकर विभेद की भी बात सामने आती रहती है। हाल में जारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट भी इस बात की तस्वीर करती है। काम के घंटे को लेकर कुछ दिनों पहले काफी विवाद देखा गया। इससे इतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हाल में जारी कैब चालक-डिलीवरी व्यवस्था जैसे कामगारों (गिग वर्कर्स) की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में माना गया है कि गिग वर्कर्स यानी ऐप आधारित कैब चालक, डिलीवरी व्यवस्था या इसी तरह का अन्य काम करने वाले 83 फीसद कामगार रोजाना चुनौतियों का सामना करते हुए औसतन दस घंटे से भी अधिक काम कर रहे हैं। नवीजतन इन कामगारों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट

में टारगेट डिलीवरी को खतरनाक माना गया है और कहा गया है कि गिग वर्कर्स को एक निश्चित समयावधि में समान की डिलीवरी करनी होती है। समय पर टारगेट पूरा नहीं होने से शारीरिक, मानसिक रूप से तनाव बढ़ता है। रिपोर्ट में गिग वर्कर्स के लिए मौजूदा रेटिंग प्रणाली पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई है और इसे मानवानी करार देते हुए इसकी समीक्षा पर बल दिया गया है। कई बार बेहतर काम करने के बावजूद इन गिग वर्कर्स को खराब रेटिंग मिलती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन गिग वर्कर्स की चुनौतियों को दूर करने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियामक ढाँचा तैयार करने और इसके जरिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इनकी चुनौतियों में लंबे समय तक काम करना, वित्तीय तनाव और शारीरिक थकावट शामिल है। इनके लिए थोड़ी राहत वाली बात यह है कि झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान जैसे कुछ राज्य इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम मजदूरी, तनाव मुक्त कार्य स्थितियों से संबंधित उनकी अन्य चिंताओं को दूर करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस आगामी 2025-26 वित्तीय वर्ष के बजट में देश के गिग वर्कर्स जिनकी संख्या एक करोड़ से भी अधिक है, उन सभी कामगारों को पहचान देने के लिए पंजीकरण करने और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इससे उम्मीद जगी है और इसी तरह की उम्मीद कारपोरेट जगत के कामगारों में जगाने की जरूरत है

क्योंकि यहाँ के कर्मचारी भी जबरदस्त तनाव में रहते हैं। ये लोग औसतन दस घंटे से कहीं अधिक समय तक काम करने को मजबूर हैं। इनके नारायण मूर्ति, एस.एम. सुब्रमण्यम जैसे मालिकानों की सोच बदलनी होगी और उन्हें अहसास दिलाना होगा कि उनकी इस तरह की सोच, नजरिया से न तो उनका और न ही कामगारों का भला होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब दुनिया बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के खतरे को महसूस कर रही है, तब काम के घंटे बढ़ाने के कारण देश में और भी बेरोजगारी बढ़ेगी, यह तय है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि अर्थनीति की दिशा बदली जाए काम के घंटे घटाकर ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए और रोजगार को संवैधानिक अधिकार बनाकर राज्य की जिम्मेदारी तब की जाए कि वह नौजवानों के लिए रोजगार/नौकरी को सुनिश्चित करे। स्वीडन ने छह घंटे कार्बीदस की नीति अपनाई, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई। जर्मनी ने भी कार्य घंटों को सीमित कर कर्मचारियों को दक्षता और कुशलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कार्य घंटों को घटाने से कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता दोनों में सुधार होता है, जो संगठनों की दीर्घकालिक प्रगति के लिए भी फायदेमंद है। भारत में इस दिशा में सुधार के लिए व्यापक नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है। श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि कार्यदिवस के घंटे तय हों और कंपनियां



इन नियमों का सख्ती से पालन करें। 'स्मार्ट वर्क' के विचार को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कर्मचारी अपनी दक्षता और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए कम समय में बेहतर परिणाम दे सके। अंततः संगठनों को यह समझना होगा कि उत्पादकता केवल काम के घंटों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह कर्मचारियों की प्रेरणा, कौशल-सम्मान और प्रोत्साहन पर आधारित होती है। कर्मचारियों को बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करना और उनकी क्षमताओं का सही आकलन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित कार्यसंस्कृति न केवल कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करती है, बल्कि उनकी उत्पादकता और समर्पण को भी बढ़ाती है।

एक नजर

मोटरसाइकिल सवार के आमने सामने की टक्कर में दो घायल

साहिबगंज/राजमहल : प्रखंड के उपडाकघर लालू मार्केट के पास बीती रात मोटरसाइकिल और साइकिल चालक के बीच आमने-सामने की टक्कर में दो व्यक्ति घायल हो गये। मिली जानकारी के अनुसार हाटपाड़ा निवासी शिरीश हालदार 40 वर्षीय अपना मिठाई दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, इस दौरान विपरीत दिशा से पूर्वी नारायणपुर के एक नंबर का विक्रम चौधरी 24 वर्षीय मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर दोनों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। जिसमें दोनों बीच सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गये। दोनों घायलों को राहगीरों की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल राजमहल लाया गया। जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दोनों घायलों को उनके परिजनों ने इलाज के लिए रात में ही पश्चिम बंगाल के मालदा ले जाया गया। जहां विक्रम चौधरी की गंभीर स्थिति में शनिवार को मालदा से भी रेफर कर दिया गया है। दूसरे घायल का इलाज मालदा में ही चल रहा है। घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई थी।

अफीम की फसलों को किया गया नष्ट

खूंटी : उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर शनिवार को खूंटी जिले के करी समेत अन्य प्रखंडों में जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। अभियान के दौरान ट्रेक्टर और अन्य संसाधनों की मदद से बड़ी मात्रा में अवैध फसल नष्ट की गई। कार्रवाई में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को अवैध अफीम की खेती से होनेवाले कानूनी और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा उन्हें वैकल्पिक और लाभकारी खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध अफीम की खेती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खेत में काम करने गई थी मां, घर में बेटे ने लगा ली फांसी

चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र के गोलमुंडा कुनुसाई में 22 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक हरीश संवैया की मां शनिवार सुबह अपने घर से कुछ दूरी पर खेत में काम करने गई थी। हरीश संवैया घर में अकेला था। इसी दौरान उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खेत से काम कर जब मां घर लौटी, तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। किसी तरह दरवाजा तोड़कर वह घर में घुसी, तो देखा कि उसका बेटा हरीश संवैया एक कपड़े के सहारे घर के छज्जे में फांसी पर झूल रहा है। उसके शोर मचाने पर वहां पड़ोसियों की भीड़ जुट गई। हरीश को फंदे से उतारकर सोनुवा सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनुवा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।

डीसी ने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला का किया निरीक्षण

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

साहिबगंज : बीज गुणन प्रखेत्र राजगांव, सदर प्रखंड साहेबगंज में संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला का भ्रमण किया गया। विदित हो कि उक्त कृषक पाठशाला का संचालन ग्रीनरी, रांची के द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त द्वारा सबसे पहले प्रखेत्र का कृषक पाठशाला का लेआउट प्लान का निरीक्षण किया। प्रखेत्र में अधिष्ठापित 05 एचपी सोलर आधारित पम्प सेट एवं डीप बोरिंग का निरीक्षण किया। सोलर पम्प से प्रखेत्र में ड्रिप सिंचाई इकाई की उपयोगिता को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। तत्पश्चात कृषक पाठशाला में नवनिर्मित गार्ड रूम-सह-लेबर रूम, पैक हाउस, नाइफ टैंक एवं एचडीपी निर्मित वर्मी



कम्पोस्ट इकाई का निरीक्षण किया। एजेंसी द्वारा अधिष्ठापित एजोला उत्पादन इकाई, बायो पेस्टीसाइड यूनिट, डीकम्पोजर यूनिट, जीवामृत यूनिट इत्यादि का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के क्रम में वहां मौजूद ग्रामीण कृषकों एवं पदाधिकारियों को उक्त इकाईयों की महत्ता एवं उपयोग के बारे में बताया। कृषक पाठशाला प्रखेत्र में गाय शेड, बकरी शेड, स्टोरेज

गोदाम एवं सोलर चालित कोल्ड स्टोरेज का लेआउट प्लान का निरीक्षण किया गया, जिसे जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ फील्ड में लगे विभिन्न फसलों का अवलोकन किया गया। मल्टिचिंग के साथ ड्रिप इरिगेशन से खीरे की खेती लगा हुआ पाया गया। उपायुक्त द्वारा ड्रिप के साथ मल्टिचिंग की उपयोगिता के बारे में जानकारी ली गयी। कार्यकारी

एजेंसी के द्वारा बताया गया कि मल्टिचिंग के साथ ड्रिप स्थापित करने पर फसलों में खर-पतवार नियंत्रण, किट व्याधि नियंत्रण एवं पौधों में नमी लम्बे समय तक बरकरार रहती है, जिससे पानी की 90% तक बचत होती है। भ्रमण के दौरान पाठशाला में लगे हुए गेंदा फूल की नर्सरी का निरीक्षण किया। वहां पर उपस्थित पाठशाला के संचालक ने बताया कि एक रूप में गेंदा का पौधा खरीद कर किसान फूलों की खेती कर सकते हैं जिसे समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला द्वारा किसानों से क्रय कर ली जाएगी। उपायुक्त द्वारा प्रखेत्र में लगे प्याज एवं भिन्डी का अवलोकन किया गया। पाठशाला प्रखेत्र में लगे फलदार वृक्ष- निम्बू, अमरुद, कटहल, एप्पल बेर,

संक्षिप्त खबरें

रसिकनगर पंचायत मंडल में मनाया गया मनरेगा सप्ताह



पटमदा : मनरेगा दिवस के अवसर पर रसिकनगर पंचायत में हुए कार्यक्रम के विभिन्न योजनाओं के मनरेगा मजदूरों को सम्मानित किया गया। 70 मजदूरों को मनरेगा में काम करने के लिए धामा (कढ़ाई) देकर और मनरेगा मेट कर्मियों को प्रशस्ति पत्र साथ में डायरी और कलम के साथ मुखिया अर्चना सिंह के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुखिया अर्चना सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सनातन सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि पंचायत सचिव, रोजगार सेवक सहदेव महतो वीएफटी दीपक दास साथ में पंचायत के वार्ड सदस्य आदि उपस्थित थे।

मोटरसाइकिल दुर्घटना में दो युवक हुए घायल

साहिबगंज/राजमहल : थाना क्षेत्र के डेढ़गामा गांव में मोटरसाइकिल सड़क दुर्घटना में दो युवक घायल। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के डेढ़गामा गांव के निवासी विशाल कुमार (18) वर्षीय एवं रमेश मंडल (19) वर्षीय शनिवार की सुबह दोनो युवक एक बाइक पर सवार होकर मंगलहाट चौक से अपने घर डेढ़गामा गांव आ रहे थे। इसी दौरान डेढ़गामा गांव के समीप अनियंत्रण मोटरसाइकिल होकर सड़क पर ही गिर पड़े। जिससे दोनो युवक युवक घायल हो गए हैं। परिजनों ने नजदीकी चिकित्सक में प्राथमिक उपचार किया गया।

काशीडीह मेला में उमड़े लोग



पटमदा : पटमदा प्रखंड अन्तर्गत काशीडीह ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। मेला में इसके अलावा शिक्षामुलक प्रतियोगिता का आयोजन भी कमिटी की ओर से किया गया था। जिसमें बच्चों के लिए गणित दौड़, विज्ञान, म्यूजिकल चेंबर, हंडी फोडना आदि। काफी तादाद में दर्शक मेला देखने पहुंचे। शाम के समय झाड़ग्राम के सुसुर, पुरुलिया का बाई नृत्य एवं रात्रि में वाडिल और पटमदा प्रखंड के छे नृत्य कलाकारों प्रस्तुति देंगे। मेला को सफल बनाने में सुभाषि, चेतन महतो, राधानाथ महतो, मुकेश, संतोष, सुभाष, पशुपति, प्रदीप, नन्दलाल, महादेव, निरंजन, गौतम, धीरेन, अभिजीत, शांतिराम व विश्वनाथ आदि सक्रिय योगदान दे रहे थे।

बिरसा कॉलेज में सम्मानित किये गये नागपुरी के साहित्यकार



खूंटी : नागपुरी विभाग की ओर से बिरसा कॉलेज खूंटी में शनिवार को प्रफुल्ल जयती सह नागपुरी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रफुल्ल कुमार राय को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर नागपुरी भाषा साहित्य पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। नागपुरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. कोरनेलियुस मिंज ने कहा कि नागपुरी बहुत ही प्राचीन और समृद्ध भाषा है। इसकी महत्ता लोगों को अपनी ओर बरबस खींच ही लेती है। यह संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है। इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। प्रफुल्ल कुमार राय का नागपुरी साहित्य के संवर्धन में बहुत ही अहम योगदान है। प्रफुल्ल कुमार राय आधुनिक नागपुरी साहित्य के जनक हैं, जिन्होंने गद्य विधा में आधुनिक लेखन की शुरुआत की। आधुनिक नागपुरी कहानी लेखन की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। कॉलेज की प्रभारी प्राचार्या जे किंडो ने कहा कि प्रफुल्ल कुमार राय को उनके कार्यों से जाना जाता है। उनकी नागपुरी की उन्दा रचनओं ने साहित्य को समृद्ध किया है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी ही जरूरत है। मौके पर नागपुरी के लिए समर्पित रहने वाले नागपुरी साहित्यकार कर्ण के स्व विद्येश्वरी मिश्र, कर्ण के ही वादक, गीतकार गोपाल चंद्र देवघरिया और खूंटी के साहित्यकार स्व शिव अवतार चौधरी ने साहित्य को नागपुरी सेवा सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान विद्येश्वरी मिश्र की धर्म पत्नी ललिता देवी, शिव अवतार चौधरी के बड़े पुत्र अरुण चौधरी ने प्राप्त किया। गोपाल चंद्र देवघरिया ने खुद सम्मान ग्रहण किया।

दिल्ली में भाजपा की जीत पर तोरपा में भाजपाइयों ने मनाया जश्न



खूंटी : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रखंड जीत पर तोरपा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ब्लॉक गेट के पास आतिशबाजी कर और मिठाइयां बाँटकर जीत का जश्न मनाया। मौके पर पूर्व विधायक कोषे मुंडा ने कहा कि यह जीत भाजपा की राष्ट्रवादी नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेतृत्व का परिणाम है। यह जीत दिल्ली की जनता की जीत है। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा की जीत पर तोरपा विधानसभा क्षेत्र की ओर से दिल्ली के मतदाताओं को बधाई देता है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में भाजपा की जीत देश के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा देश हित में कार्य करने वाली पार्टी है। इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और आनेवाले समय में होनेवाले सभी चुनावों में भाजपा को जीत मिलेगी। मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संतोष जयसवाल, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र मांडवी, विनोद भागत, कृष्णा भागत, भगीरथ राय, दीपक तिग्रा, नीरज जयसवाल, नीरज पाटी, रामाशीष महतो, रामानंद साहू, सुबोध गुप्ता, विनोद धान, कलीम खान, पवन जयसवाल, मुकेश गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन अभियान 10 फरवरी से

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

साहिबगंज : जिला में 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन अभियान प्रारंभ किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अभियान की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए जिलास्तर का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सभी प्रखंड के एमओआईसी, बीपीएम, एमटीएस तथा अन्य को दिया गया है। इसमें पीरामल के द्वारा रिफ्रूजल कन्वर्जन पर प्रशिक्षण दिया गया। सभी प्रखंडों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्यकर्मियों को सर्वजन दवा सेवन अभियान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। स्वास्थ्यकर्मियों को दवा सेवन कराने का प्रशिक्षण में सहयोगी संस्था पीरामल द्वारा भी सहयोग

किया गया। सभी योग्य लाधुकों को स्वास्थ्यकर्मियों अपने सामने ही दवा का सेवन करावेंगे। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में दो प्रकार की दवा का सेवन कराया जायेगा। इनमें डीडीसी और अल्वेडोजोल को शामिल किया गया है। ये जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान से पूर्व आयोजित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सिविल सर्जन डॉ प्रवीण कुमार संधालिया ने दी। इस मौके पर उनके साथ वीबीडीसी डॉ सती बाबू डाक्टर तथा पीरामल टीम से डीएल ईमोन दास, पीएल अभिषेक कात्यायन और अजय केशरी, एफएलए मोशाहिद परवेज तथा डाटा एंट्री ऑपरिटर लड्डू कुमार भी मौजूद रहे। सिविल सर्जन डॉ

प्रवीण कुमार संधालिया ने अपील किया कि लोग स्वास्थ्यकर्मियों के सामने ही दवा का सेवन करें। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी प्रखंडों में सात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तहत आने वाली एक हजार 819 गांवों के दो लाख 67 हजार 441 घरों को कवर किया जायेगा। इन घरों की 13 लाख 54 हजार 570 लोगों को दवा सेवन कराने का लक्ष्य रखा गया है। दवा सेवन अभियान के लिए पूरे जिले में 1831 बूथ बनाये गये हैं। अभियान में तीन हजार 420 स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया है। 334 सुपरवाइजरों को दवा सेवन कार्यों के अनुश्रवण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। दवा की आपूर्ति की जा चुकी है। वीबीडीसी डॉ सती बाबू डाक्टर ने बताया

कि दवा सेवन से पूर्व आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाना है। दवा का सेवन भूखे पेट नहीं कराया जाना है। साथ ही दो वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोग से बीमार व्यक्ति को दवा नहीं खिलानी है। हाथोंपांव जैसे गंभीर रोग की रोकथाम के लिए दवा का सेवन जरूरी है। फाइलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के पैर में सूजन आ जाती है। इसे आमभाषा में हाथोंपांव भी कहा जाता है। यह मादा मच्छर व्यूलेस के काटने से होता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया मुख्यतः मनुष्य के शरीर के चार अंगों को प्रभावित करता है। जिसमें पैर, हाथ, अंडकोष और महिलाओं के स्तन शामिल हैं।

जमशेदपुर पुलिस ने गोलीबारी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

जमशेदपुर : जिले के सीतारामदेरा थाना क्षेत्र के भालुबासा इलाके में 15 दिसंबर 2024 को फायरिंग की घटना हुई थी। एसएसपी कौशल किशोर के निर्देश पर पुलिस की टीम को इस मामले में सफलता हासिल हुई है। इस घटना में तड़ीपार अपराधी सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहराब उर्फ लाल बाबू को गिरफ्तार किया है। सोहराब आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड

पुरूलिया रोड नंबर 18 के पास स्थित मैरिज हॉल के समीप का रेंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, विकास आयुक्त ने जाननी भिद्दा पहाड़िया गांव, पंचायत दामिन भिद्दा, ग्राम आमजोड़ी पहाड़, सुंदर पहाड़ और गढ़ी पहाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़िया समुदाय के सैकड़ों महिला-पुरुषों से मुलाकात कर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। प्रशासन की ओर से जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरित किए गए। उप

डीडीसी ने पहाड़िया गांवों का किया दौरा, कंबल का किया वितरण

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

साहिबगंज : उप विकास आयुक्त सीतीश चंद्रा ने मंडरो प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पहाड़िया गांवों का मैराथन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार, मंडरो बीडीओ मेघनाथ उरांव, परियोजना पदाधिकारी विशंवर पटेल समेत अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर गांवों की स्थिति का जायजा लिया। उप विकास आयुक्त ने जाननी भिद्दा पहाड़िया गांव, पंचायत दामिन भिद्दा, ग्राम आमजोड़ी पहाड़, सुंदर पहाड़ और गढ़ी पहाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़िया समुदाय के सैकड़ों महिला-पुरुषों से मुलाकात कर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। प्रशासन की ओर से जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरित किए गए। उप



विकास आयुक्त ने दौरों के दौरान पेयजल, शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, आवास, खेल मैदान सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री जनमन योजना, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) जैसी योजनाओं की प्रगति की जांच की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 16 लाधुकों को पहली किस्त का भुगतान किए जाने

की जानकारी दी। वहीं, 1 फरवरी 2025 को 7 और लाधुकों को किस्त का भुगतान किया गया। डीडीसी ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 27 आवासीय निर्माण कार्य लॉन्ग तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को निर्देश दिया कि वे गांव में आकर बचे हुए आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराएं। निरीक्षण के दौरान 12 आवास अयूरे पाए गए, जिस पर अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त हेमंत सती ने साइंस सेंटर और सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

साहिबगंज : उपायुक्त हेमंत सती ने जिले के साइंस सेंटर और सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साइंस सेंटर को और प्रभावी बनाने के निर्देश निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने साइंस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षणिक सामग्री और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र को अधिक शैक्षणिक और आकर्षक बनाना जाए, ताकि छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाई जा



सके। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए और आवश्यकतातुसार नए उपकरण जोड़े जाएं। सदर अस्पताल में मरीजों को दी

जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा इसके बाद उपायुक्त ने सदर अस्पताल का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने डिजिटल एक्स-रे,

सामान्य एक्स-रे, दंत बाह्य ओपीडी सहित विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता और उपलब्धता की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान

उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को बेहतरित स्वास्थ्य सेवाएं देने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया और सभी चिकित्सा कर्मियों को समय पर ड्यूटी पर मौजूद रहने का निर्देश दिया। प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाने का प्रयास किया और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासत है।

ब्रिटानिया अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाएगी

- कंपनी का 6-6.5 फीसदी कीमत वृद्धि का लक्ष्य

नई दिल्ली ।

एफएमसीजी की प्रमुख खिलाड़ी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस वित्त वर्ष के अंत तक अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 2 फीसदी तक की कीमत बढ़ाती कर दी थी। ब्रिटानिया जो ब्रांड्स जैसे कि ब्रिटानिया गुड डे और मारी गोल्ड का नाम रखती है, ने अपने निवेशकों को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 तक 4-4.5 फीसदी तक कीमतें बढ़ाने की योजना बनाई है। महंगाई और कमजोर मांग के हलाल पर ध्यान देते हुए, कंपनी

ने 6-6.5 फीसदी कीमत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इस नए नीति के साथ ब्रिटानिया की समेकित शुद्ध लाभ में 31 दिसंबर को 5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो विश्लेषकों के अनुमान से अधिक है। इसके बावजूद शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में एक चौरपटी देखी गई। ब्रिटानिया ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का मुनाफा 582 करोड़ रुपये रहा जो विश्लेषकों के 521 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक था। ब्रिटानिया का तिमाही राजस्व 8 फीसदी बढ़कर 4,593 करोड़ हो गया, जबकि कुल खर्च



9 फीसदी बढ़कर 3,875 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, शेयर बाजार में ब्रिटानिया के शेयरों में

केरल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ाया टैक्स

इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच एवं बिक्री की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक

नई दिल्ली ।

केरल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बढ़ते प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विधान सभा में पेश किए गए बजट में, सरकार ने 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले निजी ईवी पर एकमुश्त रोड टैक्स में वृद्धि की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद 15 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले ईवी पर 8 फीसदी रोड टैक्स लागू किया जाएगा, जो पहले 5 फीसदी था। इसके साथ ही, 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले ईवी पर 10 फीसदी कर लागू किया जाएगा। इसी तरह वैटरी किए गए पर देने वाले वाहनों पर भी 10 फीसदी का कर लगाया जाएगा। उद्योग के वकीलों का मानना है कि इस कदम से केरल में ईवी की बिक्री में तेजी आ सकती है, परन्तु कुछ नेताओं ने इसे उचित नहीं माना और सरकार को इस नीति पर सवाल उठाए हैं। इस नई निर्णय के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है केरल में अप्रियूक्टेड वाहनों के उपयोग को



कम करना और प्रदूषण मुक्त चलने की सेवाओं को प्रोत्साहित करना। एक उद्योग संगठन के नेता ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, 'ऐसे समय में यह एक सकारात्मक कदम नहीं है जब पूरा देश ईवी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और केरल के लोग उसमें सबसे आगे हैं।' बजट में कर के मोर्चे पर किए गए उपायों से राज्य सरकार को 366 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह राज्य सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इसमें 1.79 लाख करोड़ रुपये के राजस्व व्यय और 1.52 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्रगति का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार इससे राज्य को 27,125 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर लगाने की इस पहल के बारे में उद्योग जगत का कहना है कि यह पीछे की ओर ले जाने वाला कदम है।

ओबीडी 2 चरण बी ने दोपहिया वाहनों की कीमतों में इजाफा किया

कीमतों में एक से दो प्रतिशत तक का मामूली इजाफा होगा

नई दिल्ली ।

अतिरिक्त हाइड्रॉलिक की जरूरत की वजह से उत्सर्जन के नए मानदंड ओबीडी 2 चरण बी के कारण देश में दोपहिया वाहनों की कीमतों में एक से दो प्रतिशत तक का मामूली इजाफा होगा। हीरो मोटोकॉर्प के एक प्रमुख अे धिकारी ने यह बताया कि ओबीडी 2 चरण बी के मानदंड वाहनों के लिए कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के ऐसे कड़े मानक हैं जो उत्सर्जन की तत्काल निगरानी और निदान क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इस मानदंड के लागू होने से 1 मई से क.प.नी के कार्यवाहक मुख्य कार्याधिकारी विभिन्न उत्पादों की नई वाहनों को पेश कर सकेगी। उन्होंने कहा कि ओबीडी-2 चरण-बी के मानदंडों के अनुसार वाहनों में लगाए जाने वाले अतिरिक्त हाइड्रॉलिक की वजह से दामों में एक-दो प्रतिशत का मामूली इजाफा होने जा रहा है। यह समूचे

उद्योग पर लागू होगा। हीरो मोटोकॉर्प ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान अपने शुद्ध लाभ में सालाना 1,107.5 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वेतनभोगी व्यक्तियों की 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाने की सरकार की योजना का स्वागत किया। जब उसने इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ओबीडी-2 चरण-बी ने ग्राहकों की आय में वृद्धि की संभावना बढ़ा दी है। दोपहिया क्षेत्र को भी यह फायदा पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर रहत के नए नियम उस व्यक्ति पर सकारात्मक असर डालेंगे जिसकी आय 10 से 12 लाख रुपये के आसपास हो। इससे ग्राहकों का खर्च करने में थोथ नकदी बढ़ेगी और दोपहिया क्षेत्र हाईड्रॉलिक की वजह से दामों में एक-दो प्रतिशत का मामूली इजाफा होने का संभावना है।



सेचुरी प्लाईवोर्ड्स का मुनाफा छह प्रतिशत घटा

कोलकाता । सेचुरी प्लाईवोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड ने बताया कि 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका मुनाफा 6.1 प्रतिशत घटकर 58.8 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 62.7 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 21.7 प्रतिशत बढ़कर 1,140.47 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 937.4 करोड़ रुपये था। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का खर्च एक साल पहले के 862.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,062.8 करोड़ रुपये हो गया।

एनएचपीसी का लाभ दिसंबर तिमाही में 47 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 47 प्रतिशत घटकर 330.13 करोड़ रुपये हो गया। खर्च बढ़ने से कंपनी के लाभ में कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 623.28 करोड़ रुपये रहा था। एनएचपीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका कुल खर्च बढ़कर 2,217.51 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,733.01 करोड़ रुपये था। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय मामूली रूप से बढ़कर 2,616.89 करोड़ रुपये हो गई, जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में 2,549.69 करोड़ रुपये थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान को भी मंजूरी दी।

सतत विकास को आगे बढ़ाने यूएनडीपी, पश्चिम बंगाल में समझौता

नई दिल्ली । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और पश्चिम बंगाल ने प्रमुख विकास प्रारंभिकताओं पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बयान में कहा गया कि साझेदारी मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त सहित विकास वित्त पर केंद्रित करेगी। बयान के मुताबिक यह साझेदारी डेटा-संचालित नीति-निर्माण के लिए जवाबदेही हेतु निगरानी ढांचा स्थापित करेगी, डिजिटल समाधानों और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करेगा। जलवायु-अनुकूल कृषि और टिकाऊ आजीविका के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को भी इससे समर्थन मिलेगा। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जलवायु घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सहयोग से तैयारियों और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीन आपदा मजबूती रणनीति भी विकसित की जाएगी। इस समझौता ज्ञापन पर पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त एवं योजना एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) प्रभात कुमार मिश्रा और यूएनडीपी की स्थानीय प्रतिनिधि एंजेल लुसिगी ने हस्ताक्षर किए।

एयरटेल ने कहा- मोबाइल सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की जरूरत

नई दिल्ली । भारतीय एयरटेल ने अपने चांदे के तीन महीने बाद सेवा शुल्क में वृद्धि करने की घोषणा की है। एयरटेल के एक अे धिकारी ने बताया कि इसका मुख्य कारण वित्तीय स्थिरता है। उनके अनुसार कंपनी नेटवर्क में निवेश कम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अब उपभोक्ताओं के अनुभव को इस्तेमाल करने और घरेलू बॉन्डिंग सेवाओं को विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने इसे एक वित्तीय परिवर्तन के रूप में देखा और वित्तीय वर्ष 2023-24 से पूंजीगत व्यय में कमी की उम्मीद जताई। एयरटेल का एआरपीयू भी देखने योग्य है, जैसा कि अधिकारी ने कहा कि भारत का एआरपीयू वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। इसके साथ ही अब एयरटेल ने यह भी बताया कि उद्योग को सेवा शुल्क में और सुधार की आवश्यकता है ताकि स्थिरता बनाए रखा जा सके।

भारती एयरटेल को अक्टूबर-दिसंबर अवधि में 14,781 करोड़ रुपये का मुनाफा

मुंबई ।

भारती एयरटेल ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी को 14,781 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। इसकी मुख्य वजह ईएस टावर के कंसोलिडेशन के कारण वनटाइम विशिष्ट लाभ है। अगर वनटाइम विशिष्ट लाभ को शामिल किया जाए तब कंपनी को वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में 5,514 करोड़ का लाभ हुआ

है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 2,442 करोड़ रुपये था। कंपनी की ऑपरेशंस से आय सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 45,129 करोड़ रुपये हो गई है। इसकी वजह भारत और अफ्रीका के कारोबार में मजबूत वृद्धि होना है। उन्होंने कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है, जिसे मजबूत नकदी सृजन, विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन और निरंतर डीलिवरिंग से सपोर्ट मिल रहा है। एयरटेल की औसत आय

प्रति यूजर (एआरपीयू) में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है और वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 245 रुपये हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 208 रुपये था। एयरटेल ने तीसरी तिमाही में 6 लाख नए ग्राहक जोड़कर पोस्टपेड सेगमेंट में अपनी लीडरशिप को मजबूत किया, जिससे इसका कुल पोस्टपेड यूजर बेस 2.5 करोड़ हो गया। एयरटेल ने अपने कारोबार में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। कंपनी की आय



में सालाना आधार पर 8.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कंपनी के घरेलू बॉन्डिंग सेगमेंट में मजबूत वृद्धि हुई है और इस सेगमेंट की आय में वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

एलआईसी ने तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 11,008 करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली । भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 11,008 करोड़ रुपये रहा है, जो कि बीते साल की समान तिमाही में 9,468.99 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में कंपनी का कर के बाद मुनाफा 29,138 करोड़ रुपये रहा है, जो कि बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 26,913 करोड़ रुपये पर था। यह सालाना आधार पर 8.27 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में कंपनी ने 3,40,563 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम जुटाया है। इसमें सालाना आधार पर 5.51 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) सालाना आधार पर 10.29 प्रतिशत बढ़कर 54,77,651 करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में एलआईसी की नए बिजनेस प्रीमियम आय (व्यक्तिगत) सालाना आधार पर 9.73 प्रतिशत बढ़कर 42,441 करोड़ रुपये रही है। एलआईसी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने कहा, हमारा ध्यान और रणनीति एक गतिशील वातावरण में अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद और चैनल मिश्रण को बदलने की दिशा में लगातार बना हुआ है। मोहंती ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (वीएनबी) मार्जिन बेहतर होकर 17.1 प्रतिशत हो गया है, जो कि बीते साल समान अवधि में 16.6 प्रतिशत था। इस दौरान वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 6,477 करोड़ रुपये रही है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 5,938 करोड़ रुपये थी। मोहंती ने बताया कि अब तक 1.25 लाख से अधिक महिलाओं को बीमा सखी योजना में पंजीकृत किया गया है और 70,000 से अधिक को बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चित टैरिफ नीतियां, मिश्रित कारपोरेट आय और आरबीआई द्वारा अपेक्षित 25 पाइंट की बेसिस कटौती से अे स्थिरता के बीच भारतीय इक्विटी बाजार में चौकली आधार पर लगातार दूसरे सप्ताह तेजी जारी रही। बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों पर नजर डालें तो घरेलू शेयर बाजार में फरवरी महीने और कारोबारी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारी गिरावट देखी गई।

लगातार दूसरे सप्ताह शेयर बाजार में जारी रही तेजी

मुंबई ।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चित टैरिफ नीतियां, मिश्रित कारपोरेट आय और आरबीआई द्वारा अपेक्षित 25 पाइंट की बेसिस कटौती से अे स्थिरता के बीच भारतीय इक्विटी बाजार में चौकली आधार पर लगातार दूसरे सप्ताह तेजी जारी रही। बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों पर नजर डालें तो घरेलू शेयर बाजार में फरवरी महीने और कारोबारी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारी गिरावट देखी गई।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 731.91 अंक गिरकर 76,774.05 अंक पर खुला और 319.22 अंक गिरकर 77,186.74 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 243 अंक गिरकर 23,239.15 अंक पर खुला और 121.10 अंक गिरकर



23,361.05 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 1,173.68 अंकों की बढ़त के साथ 78,360.42 के स्तर पर खुला और 1,397.07 अंक उछलकर एक महीने के उच्चतम स्तर 78,583.81 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 324.41 अंक चढ़कर 23,685.45 के स्तर पर खुला और 378.20 अंक बढ़कर 23,739.25 पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 186.90 अंक की गिरावट के साथ 78,396.91 पर खुला और 312.53 अंक गिरकर 78,271.28 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 1.40 अंक गिरकर 23,737.85 पर खुला और 42.95 अंक गिरकर 23,696.30 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को हूड तेज शुरुआत ज्यादा दर नहीं टिकी। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार थोड़ी

नीति समिति के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी देर की बढ़त के बाद गिरावट देखी। सेंसेक्स 481.96 गिरावट के साथ 77,576.20 के स्तर पर खुला और 197.97 अंक गिरकर 77,860.19 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 122.75 अंक टूटकर 23,480.60 पर खुला और 43.40 अंक गिरकर 23,559.95 पर बंद हुआ।

आयकर विधेयक में बड़ा बदलाव, सरकार का सार्थक कदम

- संसद की मंजूरी के बाद रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा न केवल एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि इससे करादाताओं को बहुत सारे मुकदमेबाजी मामलों से बचने में मदद मिलेगी। साकारी सूत्रों के अनुसार यह नया आयकर विधेयक करादाताओं के लिए कई सुविधाओं के साथ आया है। इसका उद्देश्य इसे पढ़ने और समझने में आसान बनाना है, जिससे करादाताओं को अधिक संभावनाएं और विवादों से बचाने में मदद मिल सके। सरकार द्वारा इस आयकर विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा,

और उसकी मंजूरी की उम्मीद है। इसके साथ ही आगे कानून पास होने पर, विधेयक को वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष भेजा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक का जशन तीव्र भावना के साथ किया और कहा कि यह नया कानून भारतीय न्याय संहिता के मूल दर्शन को मूर्त रूप देगा। इससे कर निश्चितता और मुकदमेबाजी में काफी सुधार आ सकता है।

इस नए आयकर विधेयक के प्रमुख फीचर्स में शामिल है वर्तमान कानून के संदर्भ में बहुत सुधारने की स्पष्ट प्रमाणित तकनीक, जिससे करादाताओं और कर प्रशासन के लिए समझना आसान होगा। इस खास आयकर विधेयक के

जरिए सरकार ने करादाताओं के साथ यथासंभव सहयोग करने का संकल्प जाहिर किया है, जिससे आम जनता को एक नया और सरल करादाता-मित्र सुनिश्चिता दिया जा सके। इस आयकर विधेयक को गड़ने के पीछे सरकार का एक हेतु भी है, जो मुख्य रूप से इसे करादाताओं के लिए और संपूर्ण देश के वित्तीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। विधेयक को नया आयकर विधेयक लागू किया जाने की उम्मीद है, और यह साकारी मंत्री और उनकी सरकार के द्वारा लिया गया यह अभूतपूर्व कदम, जिसके माध्यम से आयकर संबंधित विवादों और मुकदमों का संशेष में समाधान हो सकता है।

असम के सीएम सरमा ने टाटा समूह के चेयरमैन से की मुलाकात

नई दिल्ली ।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने टाटा संस और टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन से नई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड पर आवास में मुलाकात की। इस मीटिंग में असम में टाटा समूह द्वारा किए जाने वाले आगामी निवेशों पर चर्चा की गई, जिसमें जंगीरोड में सेमी-कंडक्टर प्लांट भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में असम में मेगा प्लांट के निर्माण का निरीक्षण किया था और टाटा समूह के निवेश की सराहना की। इसके अलावा हिमंत बिस्वा सरमा ने नटराजन चंद्रशेखरन को गुवाहाटी में 25 और 26 फरवरी को आयोजित एडवोकेट असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस मीटिंग के उत्साह को दर्शाया और असम के विकास के लिए साथ में काम करने की उम्मीद जताई। टाटा समूह असम में जंगीरोड पर एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है, जिससे राज्य में सबसे बड़े निवेशों में से एक हुआ। इस मीटिंग से स्पष्ट हुआ कि असम सरकार और टाटा समूह एकसमान उत्सुकता से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साझा संकल्पित हैं। यह साझेदारी स्थानीय जनता के विकास और प्रगति के लिए नई दिशा देने का एक प्रेरणादायक कदम है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने टाटा संस और टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन से नई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड पर आवास में मुलाकात की। इस मीटिंग में असम में टाटा समूह द्वारा किए जाने वाले आगामी निवेशों पर चर्चा की गई, जिसमें जंगीरोड में सेमी-कंडक्टर प्लांट भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में असम में मेगा प्लांट के निर्माण का निरीक्षण किया था और टाटा समूह के निवेश की सराहना की। इसके अलावा हिमंत बिस्वा सरमा ने नटराजन चंद्रशेखरन को गुवाहाटी में 25 और 26 फरवरी को आयोजित एडवोकेट असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस मीटिंग के उत्साह को दर्शाया और असम के विकास के लिए साथ में काम करने की उम्मीद जताई। टाटा समूह असम में जंगीरोड पर एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है, जिससे राज्य में सबसे बड़े निवेशों में से एक हुआ। इस मीटिंग से स्पष्ट हुआ कि असम सरकार और टाटा समूह एकसमान उत्सुकता से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साझा संकल्पित हैं। यह साझेदारी स्थानीय जनता के विकास और प्रगति के लिए नई दिशा देने का एक प्रेरणादायक कदम है।

महाकुंभ स्नान को गए पांच परिवारों के

घरों में चोरों ने मचाया तांडव

15 लाख के जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ

शेखपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौर के खत्म होते ही शेखपुरा जिले में प्रशासन की सुस्ती का असर दिखने लगा है। गुरुवार देर रात चोरों ने शहर के बाइपास स्थित इंदिरा सिनेमा हॉल के पीछे बसे मोहल्ले में पांच घरों को निशाना बनाया। इनमें से चार घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि एक घर का सिर्फ ताला तोड़ा गया। इस दौरान चोर करीब 15 लाख रुपये के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने घरों के दूटे ताले देख पुलिस को सूचना दी। इसके बाद

स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जिन घरों में चोरी हुई उनके परिवारों के मुताबिक, एक परिवार अपने ससुराल गया हुआ था, जबकि तीन परिवार महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। वहीं, एक परिवार दिल्ली में रहता है। चोरों ने घरों के सने होने की खबर मिलते ही इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घरों में घुसने के बाद बक्से और अलमारियों के ताले भी तोड़ दिए और वहां रखी नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना से



स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। लोग पुलिस से डॉग स्क्वाड को बुलाने की मांग कर रहे हैं। इंदिरा सिनेमा हॉल के पीछे बसे मोहल्ले में धर्मद्र पासवान के घर से पांच लाख

रुपये नकदी और सोने-चांदी के गहनों सहित कुल नौ लाख की चोरी हुई। घटना से एक दिन पहले धर्मद्र पासवान अपने ससुराल वाद गए थे। वहीं, संतोष कुमार, शशिकांत कुमार और नवीन मंडल प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने गए थे। इन तीनों के घरों को भी चोरों ने निशाना बनाया और लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। एक अन्य घर में भी चोरी हुई, लेकिन उसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। नगर थानाध्यक्ष धर्मद्र कुमार ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से दो घरों में चोरी हुई है, जबकि अन्य घरों के ताले तोड़े गए हैं। पीड़ितों की लिखित शिकायत के बाद ही यह पता चल सका कि कुल कितने की चोरी हुई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज

खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। इसके अलावा घटनास्थल से चोरों का एक जूता बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, लेकिन उनके जाते ही प्रशासन पूरी तरह से सुस्त पड़ गया। चोरों ने बिना किसी डर के एक ही रात में पांच घरों को निशाना बनाया, जिससे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों के हांसले बुलंद हैं।



संक्षिप्त डायरी

तीन दिनों से लापता युवक का शव पोखर में मिला, कमर में बंधा था पत्थर

शराब बेचने का विरोध करने पर युवक को मारा चाकू

वैशाली। बेलसर थाना क्षेत्र के नगमा गांव में अवैध शराब का कारोबार का विरोध करने पर 25 वर्षीय युवक को शराब माफिया ने चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल युवक की पहचान अनिल सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद उसे पहले बेलसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर हाजीपुर सदर अस्पताल और वहां से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। जख्मी के परिवारों ने पड़ोसी अजीत पटेल और उसके पुत्र पर आरोप लगाया है। पीड़ित की भाभी ने बताया कि अजीत पटेल और उसका पुत्र अवैध शराब का धंधा करते हैं। जब अनिल ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपी अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचे और न केवल मारपीट की, बल्कि

अनिल की पीट पर चाकू से हमला कर दिया। बताया कि पुलिस को



सूचना देने के दो घंटे बाद भी वह मौके पर नहीं पहुंची। आरोपी अजीत पटेल ने पुलिस से अपनी अच्छी पहचान होने का दावा किया है। बेलसर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने मामले को दो पक्षों के बीच मारपीट का विवाद बताया है। उन्होंने स्वीकार किया कि शराब बेचने का विरोध करने पर मारपीट की बात में दम है और मामले की जांच की जा रही है।

पति-पत्नी के झगड़े को सुलझाने गए सरपंच की हत्या सनकी पोते ने ही सिर पर वारकर मार डाला

मधेपुरा। सरपंच की हत्या कर दी गई। कारण बस इतना था कि सरपंच घनश्याम शर्मा (52) अपने बड़े भाई के पौत्र और पौत्रवधु के बीच का विवाद सुलझाने गए थे। विवाद देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गया। सनकी पोते ने ही सिर पर वारकर सरपंच को मार डाला। घटना मधेपुरा जिले के भराही थाना क्षेत्र के धुरगांव पंचायत की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात सरपंच घनश्याम शर्मा के बड़े भाई के पोते गुड्डू कुमार और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। यह विवाद जल्द ही



मारपीट में बदल गया। गुड्डू और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ता देख सरपंच घनश्याम शर्मा बीच-बचाव करने पहुंचे। उन्होंने गुड्डू को समझाने की कोशिश की और झगड़ा शांत करने का प्रयास किया। मृत घनश्याम शर्मा के भतीजा चंदन कुमार ने बताया कि गुस्से में आकर गुड्डू कुमार ने धारदार दबिया से सरपंच के सिर पर वारकर दिया।

पहले धुरगांव पंचायत के उप मुखिया थे। पहली बार 2021 में सरपंच बने थे। घनश्याम शर्मा की हत्या की खबर जैसे ही उनके परिवार और गांव में फैली हर् कोई स्तब्ध रह गया। मृतक के दो बेटे हैं दोनों उड़ीसा में फर्नीचर का काम करते हैं। आरोपी गुड्डू कुमार मृतक सरपंच घनश्याम शर्मा के बड़े भाई स्व. सोनलाल शर्मा का पोता है। गुड्डू के पिता का नाम उमेश शर्मा है। भराही थाना पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष अमरनाथ चौहान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

टेकेदार की संदिग्ध स्थिति में मौत

अर्धनग्न हालत में मिला शव, मौके से बाइक और मोबाइल बरामद

मुजफ्फरपुर। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर इलाके में एक टेकेदार का अर्धनग्न हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के कोहियार गांव निवासी दिलीप कुमार सिंह (42) के रूप में हुई है। वह करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी इलाके में किराए के फ्लैट में रहते थे और टेकेदारी का काम करते थे। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने शव से कुछ दूरी पर मृतक की बाइक भी बरामद की। वहीं, शव को देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। शरीर पर गहरे जख्मों के कई निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और गहरी हो गई है। मौके



पर पहुंची ब्रह्म टीम ने सबूत इकट्ठे किए, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस से सूचना मिलने के बाद जब वह मौके पर पहुंचे, तो देखा कि यह उनके छोटे भाई दिलीप कुमार का शव है। उन्होंने कहा कि शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे साफ लग रहा है कि मारपीट कर उनकी हत्या की गई है। दीपक कुमार सिंह ने बताया कि उनका भाई टेकेदारी करता था और अविवाहित था। वह मुजफ्फरपुर में वास्तु विहार के एक फ्लैट में रहते थे। उनकी बाइक भी शव से थोड़ी दूरी पर बरामद हुई है। परिवारों ने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही दिलीप किसी विवाद में थे। ऐसे में यह घटना सांजिशन हत्या का मामला प्रतीत हो रही है। डीएसपी टाउन-1 सोमा देवी ने बताया कि प्रथम दृष्टया

यह मामला हत्या का लग रहा है। उन्होंने कहा कि शरीर पर गहरे जख्मों के निशान हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मारपीट कर हत्या की गई है। मौके से पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत की असली वजह का खुलासा हो सके। पुलिस ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और परिवार, दोस्तों और टेकेदारी के संपर्कों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। लेकिन क्या यह किसी आपसी रंजिश का नतीजा था। कोई लुटपाट की घटना थी या किसी व्यावसायिक विवाद से जुड़ा मामला था। यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने कहा कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीजे गाड़ी पर बैठा था छोटू, अचानक सिर में लगी गोली


जमुई। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और एक गोली छोटू के सिर में लग गई। जिससे वह गिर गए तभी गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवारों ने राजन उर्फ बब्बू और मृतक के चचेरे भाई विशाल कुमार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते राजन ने छोटू की हत्या कर दी है। इधर घटना को लेकर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।



लोग नाच-गा रहे थे। तभी हर्ष फायरिंग हुई और एक गोली छोटू के सिर में लग गई। जिससे वह गिर गए तभी गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवारों ने राजन उर्फ बब्बू और मृतक के चचेरे भाई विशाल कुमार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते राजन ने छोटू की हत्या कर दी है। इधर घटना को लेकर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, दो लोगों की मौत, तीन यात्रियों की हालत गंभीर, पूर्णिया में हादसा

पूर्णिया। अटॉ अनियंत्रित होकर पलटने से अटॉ ड्राइवर सहित दो की मौत हो गई। वहीं तीन यात्री घायल हो गए। तीनों को पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तीनों का इलाज जारी है। घटना घमदाहा थाना क्षेत्र के अमारी गांव के समीप के पास शुक्रवार शाम भूसा लोड एक अटॉ अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय अटॉ में ड्राइवर सहित पांच लोग सवार थे। इस दुर्घटना में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को आनन-फानन में जीएमसीएच पूर्णिया में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, जबकि तीन घायलों का इलाज जारी है। मृतक की पहचान घमदाहा के कुकरन पंचायत के बूट 11, अमारी निवासी स्व. भूमि राम के पुत्र बरुण कुमार राम (36) के रूप में हुई। बरुण अपने पीछे पत्नी और चार बच्चों को छोड़ गया है। परिवारों के अनुसार, वह मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था और रोजाना की तरह काम की तलाश में शहर जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब अटॉ घमदाहा थाना क्षेत्र के अमारी गांव के पास पहुंची, तो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने जीएमसीएच पूर्णिया को प्राथमिक उपचार के लिए पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जीएमसीएच पूर्णिया रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान एक अन्य युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।



लगा हुआ है। उनके अंतिम दर्शन के लिए कामेश्वर चौपाल के कमरेल में PHED मंत्री नीरज सिंह बबलू और उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, इखड बिहार अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल पहुंचे। जहां सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि कामेश्वर चौपाल गरीब घर में पैदा हुए लेकिन उन्होंने समाज के हित में बहुत काम किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कामेश्वर चौपाल का निधन हमारे लिए काफ दुःखद है। कहा कि वो हमेशा धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए आगे रहते थे। PHED मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि उनके निधन से पूरे कोसी और बिहार में शोक है। कहा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा कि उनके गांव के विकास के लिए हमलोग हमेशा आगे रहेंगे।

गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 10 लोग झुलसे, अचानक हुआ विस्फोट

नई दिल्ली। पश्चिम चंपारण के वेतिया में रसाई गैस सिलेंडर ब्लास्ट में दस किशोर बुरी तरह झुलस गए। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना बगहा पुलिस जिला के देवरिया तरुवनवा पंचायत के भेलाही गांव की है। शुक्रवार को घर में गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लग गई। घर के सभी सदस्य बाहर थे। अचानक रसाई गैस का रिसाव होने लगा। इसके बाद आग ने धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। भीषण आग को देखते हुए आसपास के लोग इसे बुझाने पहुंचे। इसी बीच अचानक गैस सिलेंडर विस्फोट कर दिया। हादसे में 10 लोग झुलस गए। घटनास्थल पर तुरंत अफ़रातफ़री का माहौल कायम हो गया। आननफ़ानन में सभी घायलों को इलाज के लिए हरनाटाड़ पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया

परिवार मौजूद नहीं थे। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट कर गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति अभी सामान्य है और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और गैस सिलेंडर के उपयोग में सावधानी बरतने की अपील की है।



कि सभी घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। झुलसे लोगों की पहचान नंदलाल शाह (56), माधव मिश्रा (13), सुरत पांडव (14), सुजीत कुमार (13), सुजीत कुमार (12), अन्नू कुमार (19), वशिष्ठ कुमार (24) नंदकिशोर महतो (55), आदित्य कुमार (12), सुरेंद्र कुमार (22) शामिल हैं। लोगों का कहना है कि भेलाही गांव निवासी रमाकांत कुशवाहा के झोपड़ी में गैस सिलेंडर से रिसाव हो रहा था, इससे अचानक आग लग गई। इस दौरान रमाकांत कुशवाहा और उनके



परिवार मौजूद नहीं थे। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट कर गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति अभी सामान्य है और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और गैस सिलेंडर के उपयोग में सावधानी बरतने की अपील की है।



सुपौल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सुपौल जिले के कमरेल लाया गया, जहां आज दोपहर करीब 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे विद्यानंद विवेक ने उन्हें मुखाग्नि दी। जहां बिहार सरकार के कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुःख हुआ है। वे एक अन्यत्व रामभक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। कामेश्वर



चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी, जो उस समय एक ऐतिहासिक घटना थी। वह विश्व हिंदू परिषद के सह संगठन मंत्री के रूप में सक्रिय थे और बाद में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रहे। उनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को बिहार के सुपौल जिले के कमरेल गांव में हुआ था। उन्होंने जेएन कॉलेज, मधुबनी से स्नातक और मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से 1985 में एमए की डिग्री प्राप्त की। राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। उनके निधन से राम मंदिर आंदोलन और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अड्डा का समापन हुआ है। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए समर्थकों और शुभचिंतकों का ताता



लगा हुआ है। उनके अंतिम दर्शन के लिए कामेश्वर चौपाल के कमरेल में PHED मंत्री नीरज सिंह बबलू और उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, इखड बिहार अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल पहुंचे। जहां सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि कामेश्वर चौपाल गरीब घर में पैदा हुए लेकिन उन्होंने समाज के हित में बहुत काम किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कामेश्वर चौपाल का निधन हमारे लिए काफ दुःखद है। कहा कि वो हमेशा धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए आगे रहते थे। PHED मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि उनके निधन से पूरे कोसी और बिहार में शोक है। कहा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा कि उनके गांव के विकास के लिए हमलोग हमेशा आगे रहेंगे।



क्या सच है ये जादू

जब टीवी या थियेटर में तुम कोई फैंटेसी से भरी, जादू वाली मूवी देख रहे होते हो तो तुम्हें सच में जादुई दुनिया पर यकीन होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हैरी पॉटर का जादुई झाड़ू और नार्निया का बोलने वाला रीबदार शेर सच में हो सकता है, लेकिन असल में परदे पर इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए इंसानी दिमाग की ताकत और कम्प्यूटर जनरेटेड इमेजरी का भरपूर इस्तेमाल होता है। चलो ऐसे ही कुछ फैंटेसि से रूबरू होते हैं, जहां इंसान के हाथों ने वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ जादू रचा है।

जब टीवी या थियेटर में तुम कोई फैंटेसी से भरी, जादू वाली मूवी देख रहे होते हो तो तुम्हें सच में जादुई दुनिया पर यकीन होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हैरी पॉटर का जादुई झाड़ू और नार्निया का बोलने वाला रीबदार शेर सच में हो सकता है, लेकिन असल में परदे पर इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए इंसानी दिमाग की ताकत और कम्प्यूटर जनरेटेड इमेजरी का भरपूर इस्तेमाल होता है। चलो ऐसे ही कुछ फैंटेसि से रूबरू होते हैं, जहां इंसान के हाथों ने वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ जादू रचा है।

जब टीवी या थियेटर में तुम कोई फैंटेसी से भरी, जादू वाली मूवी देख रहे होते हो तो तुम्हें सच में जादुई दुनिया पर यकीन होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हैरी पॉटर का जादुई झाड़ू और नार्निया का बोलने वाला रीबदार शेर सच में हो सकता है, लेकिन असल में परदे पर इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए इंसानी दिमाग की ताकत और कम्प्यूटर जनरेटेड इमेजरी का भरपूर इस्तेमाल होता है। चलो ऐसे ही कुछ फैंटेसि से रूबरू होते हैं, जहां इंसान के हाथों ने वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ जादू रचा है।



कुछ देर को अचंचित कर देता है। ऐसा लगता है कि क्या वाकई दुनिया में कहीं इतना बलशाली आदमी मौजूद है? पर असल में इसमें भी स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल मिवस है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने एक 6 फीट 10 इंच के आदमी को हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले कलाकार के बॉडी डबल की तरह यूज किया। साथ में हैग्रिड की झोपड़ी के दो वर्जन बनाए गए। एक बड़ा सैट जिसमें हैरी, उसके दोस्त और बाकी नॉर्मल साइज के लोग छोटे दिखे और एक छोटा सैट जिसमें हैग्रिड देव्यु जैसा बड़ा दिखे। जब सीन को फाइनली एडिट करके विजुअल इफेक्ट्स के साथ दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो हैग्रिड सच में ऐसा ही है। यही नहीं इसी मूवी में जो घूमते, चलती-फिरती सीढ़ियां दिखाई देती हैं उनमें से सिर्फ एक ही असली थी बाकी सभी सीढ़ियों के छोटे मॉडल्स थे।

इफेक्ट्स का कमाल मिवस है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने एक 6 फीट 10 इंच के आदमी को हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले कलाकार के बॉडी डबल की तरह यूज किया। साथ में हैग्रिड की झोपड़ी के दो वर्जन बनाए गए। एक बड़ा सैट जिसमें हैरी, उसके दोस्त और बाकी नॉर्मल साइज के लोग छोटे दिखे और एक छोटा सैट जिसमें हैग्रिड देव्यु जैसा बड़ा दिखे। जब सीन को फाइनली एडिट करके विजुअल इफेक्ट्स के साथ दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो हैग्रिड सच में ऐसा ही है। यही नहीं इसी मूवी में जो घूमते, चलती-फिरती सीढ़ियां दिखाई देती हैं उनमें से सिर्फ एक ही असली थी बाकी सभी सीढ़ियों के छोटे मॉडल्स थे।

इफेक्ट्स का कमाल मिवस है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने एक 6 फीट 10 इंच के आदमी को हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले कलाकार के बॉडी डबल की तरह यूज किया। साथ में हैग्रिड की झोपड़ी के दो वर्जन बनाए गए। एक बड़ा सैट जिसमें हैरी, उसके दोस्त और बाकी नॉर्मल साइज के लोग छोटे दिखे और एक छोटा सैट जिसमें हैग्रिड देव्यु जैसा बड़ा दिखे। जब सीन को फाइनली एडिट करके विजुअल इफेक्ट्स के साथ दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो हैग्रिड सच में ऐसा ही है। यही नहीं इसी मूवी में जो घूमते, चलती-फिरती सीढ़ियां दिखाई देती हैं उनमें से सिर्फ एक ही असली थी बाकी सभी सीढ़ियों के छोटे मॉडल्स थे।

हैरी पॉटर

टैनोलोजी की आज की दुनिया में हालांकि स्पेशल इफेक्ट्स की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि इंसान कई कल्पनाओं को सच कर सकता है। फिल्मों में इन इफेक्ट्स का होना दर्शकों के लिए रोमांच तो पैदा करता ही है, साथ ही साइंस से भी जोड़ता है। बच्चों के लिए बनने वाली फिल्मों में इस तरह के इफेक्ट्स और भी रोमांचक तरीके से फिल्माए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी कल्पना का विस्तार कर सकें। हैरी पॉटर मूवी में हैरी के लम्बे चौड़े दानव रूपी दोस्त हैग्रिड का होना वास्तव में

स्पेशल इफेक्ट्स से जुड़े कुछ बड़े नाम

जो नाम यहां शामिल हैं वे ज्यादातर किसी भी मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स देने वाली टीम के लीडर या सीनियर सदस्य हैं। ऐसे कई लोगों की टीम मिलकर ही किसी मूवी में डेर सारे इफेक्ट्स से जुड़े काम करती है जिसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं और सभी मिलकर काम करते हैं। इसलिए बचाई के पात्र भी सभी होते हैं।

- ▶ एंगस बिकर्टन - द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया: द वॉएज ऑफ द डॉन ट्रेडर स्कोट फेरर - ट्रांसफॉर्मर्स: डाक ऑफ द मून
- ▶ हिम ब्रुक - हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट-2
- ▶ वीज्जी सिवेल - थोर
- ▶ डेनिस म्यूरन - सुपर 8, ईटी और जुरासिक पार्क
- ▶ डीन राइट और वेंडी रॉजर्स - द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया-2

हिमाचल में निवास करते हैं दुनिया के आधे कलहंस

विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमियों में से एक हिमालय की तराई में निर्मित कृत्रिम आर्द्रभूमि पोंग डैम इस समय लगभग 43,000 कलहंसों का निवास स्थल है। वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि यह विश्व में कुल कलहंसों की लगभग आधी आबादी है, जो हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम में आश्रय लिए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार पोंग आर्द्रभूमि में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में कलहंस पहुंचे हैं। वन (वन्यजीव) के सहायक संरक्षक डीएस डडवाल के अनुसार, आर्द्रभूमि में रहने वाली पक्षियों की प्रजाति की गणना में लगभग 43,000 प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी का पता चला है। राज्य वन्यजीव विभाग ने 29 जनवरी को पोंग जलाशय में पक्षी गणना कराई थी। कलहंसों के अलावा कांगड़ा घाटी स्थित पोंग जलाशय में सामान्य कूट पक्षी, पिन्टेल, सामान्य एवं गुच्छेदार तथा लाल कलगी वाले पोचर्ड प्रजाति के बतख, सामान्य

चैती, छोटे जलकाग, बड़ी कलगी वाले ग्रेब और भूरी टांगों वाले कलहंस जैसी प्रजाति के पक्षियों की मौजूदगी का पता चला है। पक्षी गणना में 119 प्रजातियों के 1,28,200 पक्षियों की मौजूदगी का पता चला है। साथ ही भारतीय आर्द्रभूमि क्षेत्र में कम ही दिखने वाले सामान्य शेलडक, सारस क्रेन, मछलियों का शिकार करने वाले बाज (ओस्त्रे), बफ बेलीड पिपिट, भारत में पाया जाने वाला रिक्मर और छोटा गुल आधि प्रजाति के पक्षियों की मौजूदगी का भी पता चला है। डडवाल ने कहा कि पोंग डैम में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कलहंस पक्षियों ने डेरा डाला है। कलहंस हर वर्ष मध्य एशिया तथा तिब्बत और लद्दाख से यहां प्रवास पर आते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहायक निर्देशक एस. बालाचंद्रन का कहना है कि कलहंस पक्षी बड़ी संख्या में पोंग डैम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पोंग डैम आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 421 प्रजातियां, सांपों की 18 प्रजातियां, तितलियों की 90 प्रजातियां, स्तनपाई जीवों की 24 प्रजातियां और मछलियों की 27 प्रजातियां पाई जाती हैं।



छोटा राजा

एक समय की बात है दूर एक देश में विट्टू नाम का एक लड़का रहता था और वह अपने माता-पिता से खूब प्यार करता था। विट्टू बहुत ही अच्छा लड़का था और इसी वजह से सब उसे खूब पसंद करते थे। लेकिन विट्टू जिस देश में रहता था वहां का राजा बहुत ही क्रूर था। वहां के राजा से सब डरा करते थे। विट्टू रोज अपने आस-पास देखता की राजा के सैनिक लोगों को बेवजह तंग किया करते थे। ऐसे में वह अपने पापा से पूछता, पिताजी ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? पिताजी उस वक्त अपने कार्य में व्यस्त थे इस वजह से उन्होंने विट्टू से कहा, विट्टू देख नहीं रहे हो बेटा मैं अभी काम कर रहा हूँ। चलो जाओ अभी हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर पिताजी ने विट्टू का जवाब नहीं दिया। लेकिन विट्टू तो ठहरा जिज्ञासु लड़का अगर उसे कुछ जानना हो तो वह कुछ भी करके जान ही लेता। ऐसे में वह अपनी माँ के पास गया और माँ से वही सवाल पूछा, माँ ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? माँ ने अपने प्यार से विट्टू की ओर देखा और कहा, इन्हें सिर्फ एक आदमी ही ऐसा करने से रोक सकता है। और वो कौन है माँ? बताइये ना जल्दी बताइये। विट्टू ने कहा। माँ बोली, अरे मेरे लाल इतनी भी क्या जल्दी है? क्या करोगे जान कर? आप बताइये ना मुझे जानना है। विट्टू ने माँ से कहा। माँ ने जवाब देते हुए कहा, वो राजा है बेटा। ये सारे सैनिक उन्हीं के हैं और वही इन्हें रोक सकते हैं। विट्टू ने फिर सवाल पूछा, तो वो इन्हें ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? माँ ने जवाब में कहा, क्योंकि हमारे राजा अच्छे राजा नहीं है। वो लोगों को खूब परेशान करते हैं और जो मील जाए उसे सजा सुना देते हैं। ऐसे में विट्टू ने कहा, माँ मैं इन सैनिकों से लड़ूंगा और सबकी राजा से रखवाली करूंगा। माँ हस्ते हुए बोली, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है। तो फिर तुम कैसे राजा से लड़ोगे? माँ की ऐसी बातें सुन कर विट्टू निराश हो गया और मन ही मन सोचने लगा की ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ? अब रात का समय हो चला था और विट्टू के मन से वह बात घर कर चुकी थी। विट्टू सोते-सोते एक ही बात सोच रहा था की आखिर कैसे मैं राजा से लड़ सकता हूँ। यह सोचते-सोचते वह भगवान से विनती किया और कहा की हे

भगवान मुझे सकती दो की मैं राजा को हरा कर देश के लोगो की रक्षा कर सकूँ। नींद में विट्टू को एक सपना आया। सपने में एक परी आई और उसने विट्टू से कहा, विट्टू तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और उन्होंने तुम्हें राजा से लड़ने के लिए ये तलवार दिया है। जबतक तुम्हारे पास यह तलवार है तुम्हारी ताकत बढ़ जायेगी और तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पायेगा। यह कहकर परी चली गई। विट्टू की सुबह नींद खुली और उठते ही उसने सबसे पहले अपना पुरा घर खोजा। वह अपने घर का एक-एक कोना खोजने लगा लेकिन उसे वह तलवार कहीं ना मिली। ऐसे में थक हार कर विट्टू अपने बिस्तर में जा बैठा। बेटे-बेटे वह सोचने लगा, क्या वह बस एक सपना था या ऐसा सचम हुआ था? अचानक विट्टू को याद आया की घर में ऐसी बस ऐसी एक जगह बची है जहाँ उसने अभी तक नहीं देखा है और वह था बिस्तर के नीचे। उसने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे झुककर देखा और उसे वहाँ एक चमकिला तलवार मिला। तलवार को देखते ही वह उसे तुरंत बाहर निकाला। उस तलवार की चमक अन्य सभी तलवारों से अधिक थी और तलवार दिखने में जादुई लग रही थी जैसा की परी ने उसे कहा था। अब विट्टू तलवार को हाथ में लिए राजा के महल की ओर चल पड़ा। विट्टू की हाथ में वह तलवार देख सब चौक गए और सब विट्टू के पीछे-पीछे राजा के महल की ओर जाने लगे। जैसे ही विट्टू महल के दरवाजे की ओर पहुंचा तो महल के 3 सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश लेकिन उस तलवार की वजह से कोई भी विट्टू के सामने नहीं टिक पाया। अब विट्टू महल के अन्दर जा पहुँचा और राजा को सीधा चुनौती दिया। एक छोटे बच्चे को अपने सामने देख राजा हसने लगा और कहा, बच्चे ये उम्र तुम्हारे खेलने की है चलो जाओ और तलवार यही छोड़ दो। यह सुनकर विट्टू ने राजा पर सिधे हमला किया और दोनों के बीच लड़ाई चालू हो गई। दोनों के बीच की वह लड़ाई सफ़र जनता खड़े होकर देख रही थी। सबने देखा की विट्टू एक छोटा बच्चा कितनी बहादुरी से राजा से लड़ रहा है। और अन्त में उस तलवार ने अपना कमाल दिखाया और विट्टू ने उस राजा को हरा दिया। अब उस देश का राजा विट्टू बन चुका था। विट्टू से राजा और उसके सैनिकों को कड़ी सजा दि। अब सब विट्टू के देश में खुश रहने लगे और विट्टू खुसी-खुसी अपने देश में राज करने लगा।



दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जिनके बारे में सुनकर हैरानी होती है। इनमें से कुछ जगहें अपनी खासियत के लिए जानी जाती हैं तो कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जो अपने अजीबगरीब कारणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक शहर कनाडा में है, जिसका नाम किट्सॉल्ट है। कभी इस शहर में अच्छी खासी बरती हुआ करती थी, लेकिन पिछले 30 सालों से ये जगह वीरान पड़ी हुई है। बताया जाता है कि इस शहर में 1200 लोग रहते थे। वे सभी शहर के पास चलने वाली

30 सालों से वीरान पड़ा है कनाडा का शहर किट्सॉल्ट

एक माइनिंग कंपनी में काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी रोजी-रोटी चलती थी। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी का काम खत्म हो गया, ऐसे में वे सभी बेरोजगार हो गए और रोजी-रोटी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए। आज भी यहां बेहतरीन मकान, रेस्त्रां, अपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी सबकुछ है, लेकिन इंसानों के बिना ये बरती वीरान पड़ी हुई है। पिछले 30 सालों से वीरान होने के कारण कुछ लोगों का ये कहना है कि यहां अब प्रेत-आत्माओं का वास है।



भारत की इस दुर्लभ चायपत्ती की दुनिया भर में है डिमांड

भारत में लगभग हर घर में सुबह-सुबह चाय की भीनी-भीनी खुशबू से ही लोगों नींद खुलती है। चाय की एक-एक घूंट ताजगी भरा एहसास दिलाती है। अगर चाय की बात की जाए और असम का जिक्र ना हो, तो बात ही पुरी नहीं हो सकती है। असम के बगानों में चाय की कई प्रजातियों की खेती होती है। हाल ही में असम में दुर्लभ प्रजाति वाली चायपत्ती ने खास रिकॉर्ड बनाया है। इस चायपत्ती को नीलामी केंद्र पर 75 हजार रुपए प्रति किलो की कीमत पर बेचा गया है। मनोहारी गोल्ड टी असम में इस साल इसकी केवल 25 किलो पैदावार हुई। कुल पैदावार में से 12 किलो चायपत्ती की नीलामी हुई है। मनोहारी टी स्टेट के मुताबिक, ये खास तरह की चायपत्ती होती है, जिसे सुबह 4 से 6 बजे के बीच सुरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले तोड़ा जाता

है। इस चायपत्ती का रंग हल्का मटमैला पीला होता है। इतना ही नहीं ये चायपत्ती अपनी खास तरह की खुशबू के लिए भी मशहूर है। असम में इस दुर्लभ चायपत्ती की खेती 30 एकड़ में की जाती है। इस चायपत्ती के पौधों से पत्तियों के साथ कलियों को तोड़ा जाता है, फिर इन्हें फर्मेंटेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान इस चायपत्ती का रंग हरा से बदलकर भूरा हो जाता है। इसके बाद सुखाने पर ये चायपत्ती सुनहरे रंग की हो जाती है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लॉकडाउन, मानसून और बाढ़ का सीधा असर भी असम के चाय बगानों पर पड़ा है। चायपत्ती उद्योग इस साल 1 हजार करोड़ के घाटे से जूझ रही है। लेकिन हाल ही में हुए मनोहारी गोल्ड टी की नीलामी ने कुछ राहत पहुंचाई है।



दुनिया में ऐसे कई आलीशान घर हैं जो अपनी खूबसूरती और गजब डिजायन के लिए फेमस हैं। ऐसे घरों की कीमत भी करोड़ों में ही होती है। जो आम लोग नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे कई महल और बंगलों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक झोपड़ी की कीमत भी करोड़ों में हो सकती है।

जो हां, ये बात सच है। इंग्लैंड में साधारण सी दिखने वाली एक झोपड़ी करोड़ों में बिकी है। दरअसल, तालाब किनारे इस झोपड़ी को पहले लोग साधारण मान रहे थे। कभी किसी ने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन हाल ही में ये झोपड़ी 10 करोड़ में बिकी है। जिसके बाद से ये झोपड़ी चाय पर चर्चा का विषय बन गई है। बिकने के बाद से इसकी सच्चाई सबके सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। साधारण सी दिखने वाली इस झोपड़ी का इंडीरियर महलों जैसा है। इसके अंदर की सजावट किसी बंगले से कम नहीं है बताया जा रहा है कि ये झोपड़ी नहीं बल्कि तीन बेडरूम वाला अच्छा-खासा घर है। जिसे 1964 में बनाया गया था। 2016 इसके मालिक ने इसके इंडीरियर पर काम किया और फिर 10 करोड़ में इसे बेच दिया।

कई सालों तक यहां पर कई सिलेब्रिटीज किराए पर भी रहे। उस समय लोग समझते थे कि तालाब किनारे होने के कारण लोग यहां पर आते हैं लेकिन उन्हें इसकी खूबसूरती का पता नहीं था। सच्चाई पता लगने के बाद से इसकी खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फोटोज में देखा जा सकता है कि इसका इंडीरियर किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। इसके मालिक ने बताया कि इससे पहले ये झोपड़ी 3 करोड़ में बिकी थी लेकिन तब यहां पर कोई सुविधाएं नहीं थीं। इसके मालिक ने इस झोपड़ी की फोटो शेयर करते हुए कहा कि 'अगर आप भी इसे एक छोटी सी झोपड़ी समझने की गलती कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस भूल को सुधारने के लिए आपको एक बार यहां जरूर आना चाहिए और इसकी खूबसूरती देखनी चाहिए।'



एक नजर

हमास ने गाजा पट्टी में इजराइल के तीन बंधक छोड़े

गाजा पट्टी : आतंकवादी समूह हमास ने आज इजराइल के तीन बंधकों को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। आतंकी संगठन और इजराइल के बीच हुए संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौते के अंतर्गत यह संभव हो पा रहा है। दोनों पक्षों के इस रुख से सैकड़ों परिवार के सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान बिखर चुकी है। समझौते के तहत अब इजराइल 183 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इनमें 18 आतंकवादी भी हैं। यह आतंकी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। द टाइम्स ऑफ़ इजराइल के अनुसार, रिहा किए गए इजराइली बंधकों के नाम 56 वर्षीय ओहद बेन अमी, 52 वर्षीय एली शबी और 34 वर्षीय और लेवी हैं। हमास के हथियारों से लैस नकाबपोश आतंकवादियों ने सबसे पहले ओहद बेन अमी को अपने मंच पर पहुंचाया। इसके बाद शबी और लेवी को वहां ले गए। तीनों को बारी-बारी से आभार संबोधन पढ़ने का आदेश दिया गया। मंच पर तीनों को शिनाख़ परेड के बाद रेडक्रॉस को सौंप दिया गया। इस दौरान रेडक्रॉस के दो अधिकारियों से इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए। इजराइल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने कहा है कि रेडक्रॉस के अधिकारी तीनों को लेकर निकल पड़े हैं। आईडीएफ और शिनाख़ के अधिकारी तीनों नागरिकों का इंतजार कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ़ इजराइल समाचार पत्र के अनुसार, इस मौके पर मुखौटा पहने हमास के आतंकवादियों ने उग्र भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट संदेश दिया कि गाजा पर कब्जा आसान नहीं।

पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों में एक अफगानी मी 10 बंकर ध्वस्त

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने कहा है कि हाल ही में सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान अफगान नागरिक के रूप में हुई है। मुक्त की सरजमी पर दहशत फैला रहा यह अफगान आतंकी उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में मारा गया। इस बीच खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम के ऊपरी और निचले हिस्सों में 10 और बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया। द न्यूज़ इंटरनेशनल के अनुसार, सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने आज कहा कि मारे गए अफगान नागरिक की पहचान कमाल खान के बेटे लुकमान खान उर्फ नुसरत के रूप में हुई है। उसे सुरक्षा बलों ने छह फरवरी को एक अभियान में मार गिराया। वह अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के स्पेरो जिले का निवासी था। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के अधिकारियों से उसके शव को लेने के लिए संपर्क किया गया है। आईएसपीआर ने कहा कि इससे साबित होता है कि अफगान नागरिक पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। उम्मीद है अंतरिम सरकार पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को सबक सिखाएगी। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने भी एक आतंकवादी का शव अफगानिस्तान को सौंपा था। आईएसपीआर के अनुसार, 48 वर्षीय अफगान नागरिक मोहम्मद खान 11 जनवरी को बलूचिस्तान के झोब के सांबाजा इलाके में मारा गया था। इस बीच खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम के एक अधिकारी ने कहा है कि जिले के ऊपरी और निचले हिस्सों में 10 और बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया है। पाराचिनार के तहसीलदार नसीर अब्बास ने पुष्टि की कि ध्वस्त किए गए बंकरों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इस बीच कुर्रम जिले में आतंकवादी घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले 37 परिवारों को मुआवजा राशि वितरित की गई है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं दिल्ली के दिल में बसते हैं मोदी : जेपी नड्डा

एजेंसी

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद शनिवार को भाजपा मुख्यालय में भव्य आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसते हैं। इस चुनाव और इससे पहले के लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की संपदा है। यह भ्रष्टाचार करने के नए-नए तरीके को इजाजत देने की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने



कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप और दिल्ली की जनता ने लोकसभा में 7 को 7 सीटों पर भाजपा को विजय दिलाई और इस विधानसभा चुनाव में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसते हैं। उन्होंने

राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन लेकर आए। वे विकास की राजनीति को लेकर आए। उन्होंने वंचित-पीड़ित की सेवा, उनके जीवनस्तर में परिवर्तन लाने का काम किया। भाजपा ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति की। जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। यह मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए नड्डा ने कहा कि यह चुनाव के नतीजे एक संदेश है कट्टर बेईमान नेता और पार्टी को मुंहतोड़ जवाब है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली को कूड़ादान बना दिया था, घर घर के आगे कूड़े के

संक्षिप्त खबरें

पूर्व सीएम निशंक की बेटी अरुषि से चार करोड़ की टगी, दो फिल्म प्रोड्यूसर्स पर मुकदमा दर्ज

देहरादून : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी, अभिनेत्री और निमाता अरुषि निशंक से 4 करोड़ रुपये की टगी का मामला सामने आया है। देहरादून कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में मुंबई के दो फिल्म प्रोड्यूसर्स, मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद कुमार बागला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून शहर कोतवाली में पंजीकृत तहरीर में बताया गया है कि आरुषि निशंक को फिल्म में मुख्य भूमिका देने के साथ ही लाभ का लालच दिया गया। प्रोड्यूसर्स मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद कुमार बागला ने फिल्म में मुख्य भूमिका में आरुषि को निमाने के लिए ऑफ़र दिया। शर्त रखी कि उन्हें पांच करोड़ रुपये का इवेस्टमेंट के बाद 20 प्रतिशत का फिल्म में हिस्सा मिलेगा। यदि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई या वे संतुष्ट नहीं हुईं तो उन्हें 15 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस कर दी जाएगी। आरुषि ने 9 अक्टूबर 2024 को हिमश्री फिल्मस और मिनी फिल्मस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ ही 10 अक्टूबर 2024 को पहली किश्त के तौर पर 2 करोड़ रुपये दिए। इसके बाद 9 नवंबर 2024 को 1 करोड़, 27 अक्टूबर 2024 को 25 लाख, और 30 अक्टूबर 2024 को 75 लाख रुपये दिए। कुल चार करोड़ की धनराशि दी गई। गौरतलब है कि फिल्म सेट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



नागा चैतन्य ने सामंथा से तलाक पर तोड़ी चुप्पी

मुंबई : साउथ एक्टर नागा चैतन्य ने हाल ही में शोभिता धुलिपाला से शादी कर नई जिंदगी शुरू की है। नागा चैतन्य अपनी दूसरी शादी के बाद पहली बार सामंथा रुथ प्रभु के साथ नजर आ रहे हैं। तलाक के संबंध में कमेंट की। नागा चैतन्य ने कहा कि वह किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले 1000 बार सोचते हैं क्योंकि एक रिश्ता टूट गया। सामंथा और नागा चैतन्य की शादी 2017 में हुई थी। तो 2021 में तलाक लेके अलग हो गये। अब करीब 4 साल बाद उन्होंने सामंथा से तलाक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। नागा चैतन्य ने कहा कि हमारे रास्ते अलग हो गये। हमने यह निर्णय कुछ कारणों से लिया। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे और कितना स्पष्टीकरण देना होगा। मुझे उम्मीद है कि प्रशंसक और मीडिया हमारे फैसले का सम्मान करेंगे। कृपया हमारा सम्मान करें और हमें गोपनीयता दें। लेकिन दुर्भाग्यवश यह चर्चा का विषय बन गया है। मैं जीवन में बहुत शान से आगे बढ़ रहा हूँ और वह भी आगे बढ़ रही है। हम अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। मुझे फिर से प्यार मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन, ऐसा सिर्फ मेरे जीवन में ही नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे साथ अभियुक्त जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। काफी सोच-विचार के बाद हमने अलग होने का फैसला किया। मेरे लिए बहुत भावुक बात थी। मैं एक टूटे हुए परिवार से आता हूँ। तो मुझे पता है कि वह एहसास कैसा होता है। और इसीलिए मैं कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। क्योंकि मैं इसके परिणाम जानता हूँ।

द्विवार्षिक एयरो-इंडिया अंतरराष्ट्रीय

संगोष्ठी का 15वां संस्करण बंगलुरु में शुरू

नई दिल्ली : द्विवार्षिक एयरो-इंडिया अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का 15वां संस्करण शनिवार को बंगलुरु (कनकटक) में शुरू हुआ। दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र (सीईएमआईएलएसी) द्वारा एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (ईएएसआई) के सहयोग से एयरो इंडिया-2025 की प्रस्तावना के रूप में किया गया है। एयरो इंडिया-2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक बंगलुरु स्थित येलहंका एयर फोर्स स्टेशन में किया जाएगा। यह संगोष्ठी वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस वर्ष की थीम भविष्य की एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी: डिजाइन सत्यापन में चुनौतियां हैं। इसमें भविष्य की एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझानों और सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन: डिजाइन और परीक्षण में चुनौतियों पर चर्चा और विचार-विमर्श पर प्रकाश डाला गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि स्पेस से एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, यूके से कोलिनस एयरोस्पेस, जेएसआर डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, राफे एमफिब्र और टीएक्यूबिट लेब्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। सेमिनार सहयोगी अनुसंधान के अवसरों का पता लगाने और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आगे बढ़ाया जा सके। एयरोइंडिया एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों पर डिजाइन सत्यापन में चुनौतियों पर विभिन्न विषयों को कवर करने वाले कुल 12 तकनीकी सत्र निर्धारित हैं। 'भविष्य की एयरोस्पेस तकनीकें': डिजाइन सत्यापन में चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में सिस्टम डिजाइन और सत्यापन के लिए अत्याधुनिक तकनीकें, उड़ान योग्यता और प्रमाणन के लिए अभिनव दृष्टिकोण, विमानन के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसिंग तकनीक में अग्रणी प्रगति, आगामी पीढ़ी के प्रणोदन प्रणालियों में वैश्विक अंतर्दृष्टि, सैन्य विमानन में उभरते रुझान, पृथ्वी से परे मानव मिशनों को आगे बढ़ाने वाले नवाचार जैसे विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर ईएएसआई के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी भी मौजूद थे। डीआरडीओ, रक्षा पीएसए, सरावर बलों और एमएसएमई सहित निजी उद्योगों से लगभग 1,100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, भारत और विदेश दोनों से 33 वक्ता इस क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर तकनीकी वार्ता देंगे।

आरएमएल में पहली बार की गई घुटनों की दो सफल रोबोटिक सर्जरी

नई दिल्ली : डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एवीवीआईएमएस) में शुक्रवार को पहली बार सफल रोबोटिक घुटना प्रतिस्थापन किया गया। अस्पताल में पहले से ही घुटने प्रतिस्थापन यानि रिलेसमेंट किया जाता है लेकिन रोबोट की मदद से पहली बार किया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शुक्ला के नेतृत्व में, डॉ. ओ.पी. मीना और डॉ. वासु शर्मा और उनकी टीम की विशेषज्ञ सहायता के साथ 55 साल की एक महिला के दोनों घुटने और 65 साल के पुरुष के एक घुटने का प्रतिस्थापन किया गया। तीनों घुटने का ऑपरेशन एक ही दिन किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अब दोनों मरीज स्वस्थ और चल फिर रहे हैं। शनिवार को आरएमएल अस्पताल ने टीवी करके बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार दिल्ली के सरकारी अस्पताल में घुटना प्रतिस्थापन की सर्जरी रोबोट के जरिए की गई।

अलास्का में लापता विमान का मलबा मिला, 10 यात्रियों की मौत



एजेंसी

वाशिंगटन : संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में गुरुवार को लापता विमान का मलबा मिला गया है। विमान में सवार सभी 10 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने शुक्रवार को यह घोषणा की। सीएनएन की खबर के अनुसार, टुकड़ों में बंटा यह विमान गंतव्य स्थल नोम से लगभग 34 मील दक्षिण-पूर्व में मिला है। यूएससीजी लेफ्टिनेंट कमांडर माइक सालेनी ने बताया कि दो बचाव तैराकों ने तीन शवों को निकाल लिया है। सात अन्य यात्री मलबे के अंदर हैं। मृतकों में अलास्का नेटिव ट्राइबल हेल्थ कंसोर्टियम के दो कर्मचारी रोम

बॉमगार्टनर और कामेरोन हार्टीवगसन शामिल हैं। एनटीएचसी की सीईओ नताशा सिंह ने बॉमगार्टनर और हार्टीवगसन की मौत पर दुःख जताया है। अलास्का स्टेट ट्रंपर्स के अनुसार, यह विमान बैरिंग एयर का है। इसमें नौ यात्री और एक पायलट सवार थे। यह विमान अचानक मौसम खराब होने से अपने गंतव्य से भटककर दुर्घटना का शिकार हो गया। नोम वाल्टियर फायर डिपार्टमेंट ने शुक्रवार सुबह कहा कि विमान मौसम के कारण इसकी तलाश में दिक्कत आई। अमेरिकी वायुसेना के सी-130 क्यू की प्रारंभिक खोज उड़ानों में भी कुछ हासिल नहीं हुआ।

ट्रंप प्रशासन के यूएसएआईडी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के आदेश पर अदालत ने लगाई रोक

एजेंसी

वाशिंगटन : संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन ने हाल ही में यूएसएआईडी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया था। यूएसएआईडी अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी है। यह एजेंसी मानवीय आधार पर 100 से अधिक देशों की मदद करती है। अदालत के प्रतिबंध लगाने से पहले एजेंसी के कुछ समर्थकों ने पांच फरवरी को यूएस कैपिटल के सामने एकत्र होकर ट्रंप प्रशासन के फैसले का विरोध जताया। यह एजेंसी शिक्षा और स्वच्छ जल परियोजनाओं में मदद करती है। सीएनएन की खबर के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश



कार्ल निकोल्स ने शुक्रवार देररात ट्रंप प्रशासन की इस योजना को तत्काल अस्थायी प्रभाव से रोक दिया। इस आदेश से छुट्टी पर भेजे गए कम से कम 2,200 कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली है। साथ ही अदालत ने एजेंसी को निलंबित किए गए 500 अन्य कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बहाल करने का आदेश दिया गया है। जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने

कहा कि ट्रंप प्रशासन किसी भी यूएसएआईडी कर्मचारी को प्रशासनिक छुट्टी पर नहीं भेज सकता। जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उन्हें 14 फरवरी की रात 11:59 बजे तक हर हाल में बहाल किया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि एजेंसी को खत्म करने की ट्रंप प्रशासन की योजना पर व्यापक रोक लगाने के अनुरोध पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी।

दिल्ली में हरियाणा के आठ नेता चुनाव लड़ें, पांच हारे-तीन जीते

एजेंसी

चंडीगढ़ : दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में हरियाणा मूल के आठ नेता चुनाव मैदान में उतरे थे, जिनमें से पांच नेतृत्वों को चुनाव हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं तीन नेताओं को इस बार जीतने में जीताकर विधानसभा पहुंचाने के साथ ही सत्ता परिवर्तन करने का काम किया है। हरियाणा पृष्ठभूमि से आने वाले सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन एक ही नेता चुनाव जीतने में सफल रहा। हारने वालों में सबसे बड़ा नाम हिसार के सिवानी गांव के रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल ने हिसार में अपने मामा के घर पर रहकर प्रेजुशुशन तक पहुंचाई की है। कैथल के रहने वाले महेंद्र गोयल रिटाल विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। झज्जर के छारा

गांव की रहने वाली राखी बिरला मादीपुर सीट से चुनाव हार गई हैं। हिसार के उकलाना के रहने वाले दीपक सिंगला विश्वास नगर से चुनाव हार गए हैं। जबकि झज्जर के दूबलधन गांव के रहने वाले आप पार्टी ने प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह नेदिल्ली छावनी विधानसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज की है। हरियाणा के सिरसा निवासी मनजेंद्र सिंह सिरसा ने भाजपा के टिकट पर राजौरी गार्डन सीट से जीत दर्ज की है। जींद के नरवाना के रहने वाले पवन शर्मा ने भाजपा के टिकट पर उत्तम नगर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। हरियाणा की फरीदबाद लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस सांसद अवतार सिंह भड़ना के बेटे अर्जुन भड़ना को कांग्रेस ने दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। अर्जुन को दिल्ली चुनाव में जनता ने बुरी तरह से हराया है। नतीजों में उनकी जमानत तक जब हो गई है।

नेपाल के पेयजल मंत्रालय में लगी आग तीन कमरे के कागजात जलकर नष्ट

एजेंसी

काठमांडू : नेपाल के संघीय सरकार के प्रशासनिक भवन काठमांडू के सिंहदरबार में पेयजल मंत्रालय में शनिवार सुबह आग लग गयी। इससे तीन कमरे के कागजात एवं अन्य सामान जल कर नष्ट हो गए। आज सुबह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के भवन में चौथे मंजिल पर अचानक आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के तुरंत बाद वहां पहुंचे पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने बताया कि शॉट सर्किट होने के कारण आग लगने की संभावना दिख रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आग से उनके निजी कार्यकक्ष, उनका बैटक कक्ष और निजी सचिवालय के कमरे में रहे



सभी फर्नीचर, पर्दे, कम्प्यूटर, टीवी सबकुछ जल कर नष्ट हो गया है। प्रारंभिक अनुमान है कि इस घटना में करीब पचास लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। काठमांडू पुलिस के प्रवक्ता पुलिस एसपी अपील गुरुङ ने बताया कि सुबह के समय मंत्रालय में रहे

आप व कांग्रेस के फैलाये कीचड़ में कमल खिला : मोहन यादव

एजेंसी

महाकुम्भनगर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को को प्रयागराज महाकुम्भ में पहुंचकर एक साथ संगम में डुबकी लगाई। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी में स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। प्रधानमंत्री जिस तरह से लोक कल्याण की भावना के साथ शासन कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने भी उस पर विश्वास जताया है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली, यह सिलसिला जारी रहेगा। मेरी तरफ से बधाई भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत

आमजन नगरवासी गृहस्थ वनवासी आकर श्रद्धा से स्नान करते हैं। आगामी सनातन धर्म की हृष्टि से विश्व की आस्था को मजबूत करते हैं। हम अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं। अपने जीवन के ऐसे अनमोल रहस्यों के लिए ऐसे साधु सन्यासियों का सत्संग मिलता है, जिनके माध्यम से जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुम्भ में हर प्रकार की उत्तम व्यवस्था की है। 2028 में उज्जैन में कुंभ लगेगा। आज हम प्रत्यक्ष आए हैं साधु सतों से आशीर्वाद मिलेगा। परमात्मा की दया से मां गांगा यमुना की धारा में स्नान का अवसर मिला है। अच्छी व्यवस्थाओं के लिए वह उत्तर



ने पत्रकारों से कहा कि कुंभ 12 वर्ष में होने वाली अलौकिक घटना है। कुंभ मेले में विशेष स्नान सनातन संस्कृति का गौरवशाली क्षण होता है। कुंभ की समुद्र मंथन की कथा से भी जोड़ा जाता है। ऋषि मुनि तपस्वी साधु सन्यासी